

## अध्याय 10

# तरलों के यांत्रिकी गुण

<b>10.1</b>	भूमिका
<b>10.2</b>	दाब
<b>10.3</b>	धारारेखी प्रवाह
<b>10.4</b>	बर्नूली का सिद्धांत
<b>10.5</b>	श्यानता
<b>10.6</b>	रेनल्ड्स संख्या
<b>10.7</b>	पृष्ठ तनाव
	सारांश
	विचारणीय विषय
	अभ्यास

### 10.1 भूमिका

इस अध्याय में हम द्रवों तथा गैसों के कुछ सामान्य भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे। द्रव तथा गैस प्रवाहित होती हैं अतः तरल कहलाती है। मूल रूप में इस गुण के आधार पर हम द्रवों एवं गैसों का ठोसों से विभेद करते हैं।

हमारे चारों ओर हर स्थान पर तरल हैं। पृथ्वी के ऊपर वायु का आवरण है और इसके पृष्ठ का दो-तिहाई भाग जल से आच्छादित है। जल केवल हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए ही आवश्यक नहीं है वरन् सभी स्तनपायी जंतुओं के शरीर का अधिकांश भाग जल है। पौधों सहित सभी सजीवों में होने वाली समस्त प्रक्रियाओं में तरलों की परोक्ष भूमिका होती है। अतः तरलों के व्यवहार व गुणों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है।

तरल ठोसों से कैसे भिन्न हैं? द्रवों तथा गैसों में क्या-क्या समानता है? ठोसों के विपरीत तरल की अपनी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। ठोसों एवं द्रवों का निश्चित आयतन होता है जबकि गैस पात्र के कुल आयतन को भर देती है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि प्रतिबल द्वारा ठोसों के आयतन में परिवर्तन किया जा सकता है। ठोस, द्रव अथवा गैस का आयतन इस पर लगने वाले प्रतिबल अथवा दाब पर निर्भर है। जब हम ठोस या द्रव के निश्चित आयतन की बात करते हैं, तब हमारा तात्पर्य वायुमंडलीय दाब के अधीन आयतन से होता है। गैसों की तुलना में बाह्य दाबांतर से ठोस या द्रव के आयतन में परिवर्तन बहुत कम होता है। दूसरे शब्दों में गैसों की अपेक्षा ठोस एवं द्रवों की संपीड़यता काफी कम होती है।

अपरूपण (विरूपण) प्रतिबल ठोस के आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी आकृति बदल सकता है। तरलों का मूल गुण यह है कि वह विरूपण प्रतिबल का बहुत ही न्यून प्रतिरोध करते हैं। फलतः थोड़े से विरूपण प्रतिबल लगाने से भी उनकी आकृति बदल जाती है। ठोसों की अपेक्षा तरलों का अपरूपक प्रतिबल लगभग दस लाखवाँ कम होता है।

### 10.2 दाब

जब एक नुकीली सुई हमारी त्वचा में दाब लगाकर रखी जाती है, तो वह त्वचा को बेध देती है। परन्तु किसी अधिक संपर्क क्षेत्र की वस्तु (जैसे चम्मच का

पिछला भाग) को उतने ही बल से दबाएँ तो हमारी त्वचा अपरिवर्तित रहती है। यदि किसी व्यक्ति की छाती पर कोई हाथी अपना पैर रख दे तो उसकी पसलियाँ टूट जाएँगी। सर्कंस में यह करतब दिखाने वाले की छाती पर मजबूत लकड़ी का तख्ता रखा जाता है अतः वह इस दुर्घटना से बच जाता है। दैनिक जीवन के इस प्रकार के अनुभवों से हमें विश्वास हो जाता है कि बल के साथ-साथ जिस क्षेत्र पर वह बल आरोपित किया जाता है उसका क्षेत्रफल भी महत्वपूर्ण होता है। वह क्षेत्र जिस पर बल कार्य कर रहा है जितना छोटा होगा उसका प्रतिघात उतना ही अधिक होगा। यह संकल्पना 'दाब' कहलाती है।

जब कोई पिण्ड किसी शांत तरल में डूबा हुआ है, तो तरल उस पिण्ड पर बल आरोपित करता है। यह बल सदैव पिण्ड के पृष्ठों के अभिलंबवत् होता है। ऐसा इसलिए है कि, यदि बल का अवयव पिण्ड के पृष्ठ के समांतर होता है तो न्यूटन के तृतीय नियमानुसार, पिण्ड भी अपने सतह के समांतर तरल पर बल आरोपित करता है। यह बल तरल को पृष्ठ के समांतर बहने के लिए बाध्य करता है। यह संभव नहीं है, क्योंकि तरल विश्रामावस्था में है। अतः विरामावस्था में तरल द्वारा लगने वाला बल पिण्ड के संपर्क पृष्ठ के अभिलंब ही आरोपित हो सकता है। इसे चित्र 10.1(a) में दर्शाया गया है।


तरल द्वारा किसी बिंदु पर कार्यरत इस अभिलंब बल को मापा जा सकता है। ऐसा ही एक दाब मापक युक्ति के आर्श रूप को चित्र 10.1(b) में दर्शाया गया है। इस युक्ति में एक निर्वातित चैम्बर होता है, जिससे एक कमानी जुड़ी होती है। इस कमानी का अंशांकन पहले से ही इसके पिस्टन पर लगे बल को मापने के लिए कर लिया जाता है। इस युक्ति को तरल के अंदर के किसी बिंदु पर रखा जाता है। पिस्टन पर तरल द्वारा आरोपित बल को कमानी द्वारा पिस्टन पर आरोपित बल से संतुलित करके तरल द्वारा पिस्टन पर आरोपित बल को माप लेते हैं। यदि तरल द्वारा  $A$  क्षेत्रफल के पिस्टन पर आरोपित अभिलंब बल का परिमाण  $F$  है, तो औसत दाब  $P_{av}$  को बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है

अतः

$$P_{av} = \frac{F}{A} \quad (10.1)$$

सैद्धांतिक रूप में पिस्टन के क्षेत्रफल को मनमाने ढंग से छोटा किया जा सकता है। तब सीमित अर्थों में दाब को इस प्रकार परिभाषित करते हैं :

$$P = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{\Delta A} \quad (10.2)$$



चित्र 10.1 (a) बीकर के द्रव में डूबे पिण्ड अथवा उसकी दीवारों पर द्रव द्वारा आरोपित बल पिण्ड के पृष्ठ के हर बिंदु के लंबवत् कार्य करता है। (b) दाब मापने के लिए युक्ति का आदर्श रूप।

दाब एक अदिश राशि है। यहाँ हम आपको यह याद दिलाना चाहते हैं कि समीकरण (10.1) तथा (10.2) के अंश में दृष्टिगोचर होने वाली राशि संबंधित क्षेत्र के अभिलंबवत् बल का अवयव है न कि (सदिश) बल। इसकी विमाएँ  $[ML^{-1}T^{-2}]$  हैं। दाब का मात्रक  $N m^{-2}$  है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेजी पास्कल (1623-1662) ने तरल दाब क्षेत्र में पुरोगामी अध्ययन किया। इसलिए उनके सम्मान में दाब के SI मात्रक का नाम पास्कल (pascal, प्रतीक Pa) रखा गया है। दाब का एक अन्य सामान्य मात्रक वायुमण्डल (atmosphere, प्रतीक atm) अर्थात् समुद्र तल पर वायुमण्डल द्वारा आरोपित दाब, है ( $1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ )।

तरलों का वर्णन करने के लिए घनत्व ( $\rho$ ) एक ऐसी भौतिक राशि है जिसके विषय में चर्चा करना अनिवार्य है।  $V$  आयतन वाले  $m$  संहति के किसी तरल का घनत्व

$$(10.3)$$

घनत्व की विमाएँ  $[ML^{-3}]$  हैं। इसका SI मात्रक  $kg m^{-3}$  है। यह एक धनात्मक अदिश राशि है। द्रव असंपीड़य होते हैं, अतः किसी द्रव का घनत्व सभी दाबों पर लगभग अचर रहता है। इसके विपरित, गैसें दाब में परिवर्तन के साथ घनत्व में अत्यधिक परिवर्तन दर्शाती हैं।

$4^\circ C$  (277 K) पर जल का घनत्व  $1.0 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$  है। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व (विशिष्ट गुरुत्व) उस

पदार्थ के घनत्व तथा जल के  $4^{\circ}\text{C}$  पर घनत्व का अनुपात होता है। यह विमाहीन धनात्मक अदिश भौतिक राशि है। उदाहरण के लिए ऐलुमिनियम का आपेक्षिक घनत्व 2.7 है। जबकि इसका घनत्व  $2.7 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$  है। सारणी 10.1 में कुछ सामान्य तरलों के घनत्व दर्शाए गए हैं।


**सारणी 10.1** कुछ सामान्य तरलों के घनत्व मानक ताप तथा वायुमंडलीय दाब (STP) पर\*

तरल	घनत्व $\rho (\text{kg m}^{-3})$
जल	$1.00 \times 10^3$
समुद्र जल	$1.03 \times 10^3$
पारा	$13.6 \times 10^3$
ऐथिल एल्कोहॉल	$0.806 \times 10^3$
संपूर्ण रक्त	$1.06 \times 10^3$
वायु	1.29
ऑक्सीजन	1.43
हाइड्रोजन	$9.0 \times 10^{-2}$
अंतरातारकीय आकाश	$\approx 10^{-20}$

**उदाहरण 10.1** दो उर्वस्थितियाँ (फीमर) जिनमें प्रत्येक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल  $10 \text{ cm}^2$  है,  $40 \text{ kg}$  संहति के मानव शरीर के ऊपरी भाग को सँभालती हैं।

$$P_{av} = \frac{F}{A} = 2 \times \frac{\text{उर्वस्थितियों}}{\text{द्वारा सहन किए जाने वाले औसत दाब का अकलन कीजिए।}}$$

**हल** उर्वस्थितियों की कुल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल  $A = 2 \times 10 \text{ cm}^2 = 20 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ । उर्वस्थितियों पर कार्यरत बल  $F = 40 \text{ kg wt} = 400 \text{ N}$  ( $g = 10 \text{ m s}^{-2}$  लेने पर)। यह बल ऊर्ध्वाधर नीचे की दिशा में कार्य करता है, अतः यह उर्वस्थितियों पर अभिलंबवत् लगता है। इसीलिए औसत दाब



**चित्र 10.2** पास्कल के नियम का परीक्षण। ABC-DEF विराम स्थिति के किसी तरल के अभ्यन्तर का कोई अवयव है। यह अवयव इतना छोटा है कि गुरुत्व के प्रभाव की उपेक्षा की जा सकती है, परन्तु स्पष्टता के लिए इसे प्रवर्धित दर्शाया गया है।

चित्र 10.2 में विराम स्थिति के किसी तरल के अभ्यन्तर में कोई अवयव दर्शाया गया है। यह अवयव ABC-DEF एक समकोण प्रिज्म के रूप में है। प्रिज्मीय अवयव आकार में बहुत छोटा है इसलिए इसका प्रत्येक बिंदु तरल के पृष्ठ के समान गहराई पर माना जा सकता है और इसलिए प्रत्येक बिंदु पर गुरुत्व का प्रभाव समान होगा। परन्तु इस सिद्धान्त को स्पष्ट करने के लिए हमने इस अवयव को बड़ा करके दर्शाया है। इस अवयव पर आपतित बल शेष तरल के कारण है और जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है तरल के कारण आरोपित बल पृष्ठों के अभिलंब कार्य करते हैं। अतः चित्र में दर्शाये अनुसार तरल द्वारा इस अवयव पर आरोपित दाबों  $P_a$ ,  $P_b$  तथा  $P_c$  के तदनुरूपी बल  $F_a$ ,  $F_b$  तथा  $F_c$  क्रमशः फलकों BEFC, ADFC तथा ADEB पर अभिलंबवत् आपतित होते हैं जैसा कि चित्र 10.2 में दर्शाया गया है। फलकों BEFC, ADFC तथा ADEB को  $A_a$ ,  $A_b$  तथा  $A_c$  से क्रमशः व्यक्त करते हैं। तब

$$F_b \sin\theta = F_c, \quad F_b \cos\theta = F_a \quad (\text{साम्यावस्था से})$$

$$A_b \sin\theta = A_c, \quad A_b \cos\theta = A_a \quad (\text{ज्यामिती से})$$

इस प्रकार

$$\frac{F_b}{A_b} = \frac{F_c}{A_c} = \frac{F_a}{A_a}; \quad P_b = P_c = P_a \quad (10.4)$$

अतः विरामावस्था में द्रव के अभ्यन्तर में सभी दिशाओं में दाब समान रूप से कार्य करता है। हमें यह पुनः याद दिलाता है कि अन्य प्रकार के प्रतिबलों की भाँति ही दाब सदिश नहीं है। इसे कोई दिशा नहीं दी जा सकती। विरामावस्था में दाब, तरल के भीतर के किसी क्षेत्रफल (अथवा परिवद्ध तरल) पर अभिलंबवत् होता है चाहे क्षेत्रफल किसी भी अवस्थिति में हो।

### 10.2.1 पास्कल का नियम

फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल ने पाया कि यदि सभी बिंदु एक ही ऊँचाई पर हों तो विराम स्थिति के तरल के सभी बिंदुओं पर दाब समान होगा। इस सत्य को भली भाँति सरल रूप में दर्शाया जा सकता है।

\* STP का अर्थ मानक ताप  $0^{\circ}\text{C}$  तथा दाब 1 atm है।

तरल के एक अवयव की कल्पना करो जो एक समान अनुप्रस्थ काट वाले छड़ के समरूप है। यह छड़ साम्य अवस्था में है। इसके दोनों सिरों पर कार्यरत क्षैतिज बल साम्य अवस्था में होने चाहिए। अर्थात् दोनों सिरों पर समान दाब होना चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि साम्य अवस्था में क्षैतिज तल में द्रव के सभी बिंदुओं पर समान दाब है। माना कि द्रव के विभिन्न भागों पर समान दाब नहीं है, तब द्रव पर नेट बल के कारण वह बहेगा। अतः बहाव की अनुपस्थिति में तरल में प्रत्येक स्थान पर समान दाब होना चाहिए। ज्ञातव्य है दाबांतर में वायु के बहाव के कारण पवन बहती है।

### 10.2.2 गहराई के साथ दाब में परिवर्तन


एक पात्र में द्रव की विरामावस्था पर विचार करें। चित्र 10.3 में बिंदु 1 बिंदु 2 से  $h$  ऊँचाई पर है। बिंदु 1 व 2 पर दाब क्रमशः  $P_1$  तथा  $P_2$  हैं।  $A$  आधार क्षेत्रफल तथा  $h$  ऊँचाई के तरल के एक बेलनाकार अवयव को लें। चूँकि तरल विरामावस्था में है अतः परिणामी क्षैतिज बल शून्य होना चाहिए। परिणामी ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्यरत बल तरल अवयव के भार के तुल्य होना चाहिए। नीचे की ओर कार्य करने वाला ऊपरी सिरे पर तरल के दाब द्वारा बल ( $P_1 A$ ) तथा पैंदी पर ऊपर की ओर कार्य करने वाला बल ( $P_2 A$ ) है। यदि बेलन में तरल का भार  $mg$  है तो

$$(P_2 - P_1) A = mg \quad (10.5)$$

अब यदि  $\rho$  तरल का घनत्व है तो उसकी संहति

$$m = \rho V = \rho h A \text{ होगी, इसलिए}$$

$$P_2 - P_1 = \rho gh \quad (10.6)$$




चित्र 10.3 तरल के ऊर्ध्वाधर बेलनी स्तंभ पर दाब के द्वारा गुरुत्व का प्रभाव दिखाया गया है।

बिंदु 1 व 2 में दाबांतर उनके बीच ऊर्ध्वाधर दूरी  $h$ , तरल के घनत्व  $\rho$  तथा गुरुत्वाय जनित त्वरण  $g$  पर निर्भर है। यदि विचारणीय बिंदु 1 को तरल (माना पानी) के शीर्ष फलक पर स्थानांतरित कर दिया जाए जो वायुमण्डल के लिए खुला है तो  $P_1$  को वायुमण्डलीय दाब ( $P_a$ ) द्वारा तथा  $P_2$  को  $P$  से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तब समीकरण (10.6) से

$$P = P_a + \rho gh \quad (10.7)$$

इस प्रकार, वायुमण्डल के लिए खुले पृष्ठ के नीचे दाब  $P$  वायुमण्डलीय दाब की अपेक्षा  $\rho gh$  परिमाण से अधिक होगा।  $h$  गहराई पर स्थित किसी बिंदु पर अतिरिक्त दाब  $P - P_a$  उस बिंदु पर गेज़ दाब कहलाता है।

निरपेक्ष (परम) दाब के समीकरण (10.7) में बेलन का क्षेत्रफल नहीं आ रहा। अतः, दाब परिकलन के लिए तरल के स्तंभ की ऊँचाई महत्वपूर्ण है न कि पात्र की आकृति, आधार या अनुप्रस्थ काट। समान क्षैतिज तल (समान गहराई) के सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब समान होता है। द्रवस्थैतिक विरोधोक्ति के उदाहरण से इस परिणाम को भलीभांति समझा जा सकता है।  $A$ ,  $B$  तथा  $C$  विभिन्न आकृतियों के पात्र लें (चित्र 10.4)। पैंदी में एक क्षैतिज पाइप द्वारा इनको जोड़ा जाता है। पानी भरने पर इन तीनों पात्रों में उसका तल समान रहता है यद्यपि इनमें पानी भिन्न-भिन्न मात्रा में होता है। यह इसलिए है कि इनकी तली पर दाब समान रहता है।



चित्र 10.4 द्रवस्थैतिक विरोधोक्ति की व्याख्या। तीन पात्रों  $A$ ,  $B$  और  $C$  में समान ऊँचाई तक जल भरा है परन्तु सभी में जल का परिमाण भिन्न-भिन्न है।

► उदाहरण 10.2 किसी झील के पृष्ठ से 10 m गहराई पर किसी तैराक पर दाब ज्ञात कीजिए।

$$\text{हल यहाँ } h = 10 \text{ m तथा } \rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$$

$$g = 10 \text{ m s}^{-2} \text{ लें}$$


समीकरण (10.7) से,

$$\begin{aligned} P &= P_a + \rho gh \\ &= 1.01 \times 10^5 \text{ Pa} + 1000 \text{ kg m}^{-3} \times 10 \text{ m s}^{-2} \times 10 \text{ m} \\ &= 2.01 \times 10^5 \text{ Pa} \\ &\approx 2 \text{ atm} \end{aligned}$$


यह दाब खुले पृष्ठ के दाब की तुलना में 100% अधिक है। 1 km गहराई पर दाब में वृद्धि 100 atm होती है। पनडुब्बियों की संरचना इतने अधिक दाबों को सह सकने की क्षमता को ध्यान में रखकर की जाती है। ◀

### 10.2.3 वायुमण्डलीय दाब तथा गेज दाब

किसी बिंदु पर वायुमण्डलीय दाब उस बिंदु के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल पर उस बिंदु से वायुमण्डल के शीर्ष तक की वायु के स्तंभ के भार के बराबर होता है। समुद्र तल पर यह  $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$  है (1 atm)। वायुमण्डलीय दाब की यथार्थ माप के लिए सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक इवोगलिस्टा टॉरिसेली (1608-1647) ने एक युक्ति की रचना की तथा वायुमण्डल दाब को मापा। जैसा कि चित्र 10.5 (a) में दर्शाया गया है, एक सिरे से बंद लंबी काँच की नली लेकर उसमें पारा भरा गया और फिर उसे पारे से आंशिक भरे पात्र में ऊर्ध्वाधर उलटा खड़ा किया गया। इस युक्ति को पारे का बैरोमीटर कहते हैं। नली में पारे से ऊपर का स्थान पारे की वाष्प जिसका दाब  $P$  बहुत अल्प होता है, भरा रहता है, यह दाब इतना कम होता है कि इसे नगण्य मान सकते हैं। स्तंभ के अन्दर बिंदु A पर दाब समान तल वाले बिंदु B पर दाब के तुल्य होना चाहिए।



(a) पारद वायुदाब मापी



(b) खुली-नली मैनोमीटर (दाबांतर मापी)

चित्र 10.5 दाब मापने की दो युक्तियाँ।

$$\begin{aligned} \text{B पर दाब} &= \text{वायुमण्डल दाब } P_a \\ P_a &= \rho gh \end{aligned} \quad (10.8)$$

जहाँ  $\rho$  पारे का घनत्व तथा  $h$  नली में पारे के स्तंभ की ऊँचाई है।

प्रयोग में पाया गया कि समुद्र तल पर बैरोमीटर में पारे के स्तंभ की ऊँचाई 76 cm के लगभग होती है जो एक वायुमण्डलीय दाब (1 atm) के तुल्य है। समीकरण (10.8) में  $\rho$  का मान भरकर भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। सामान्यतः दाब का वर्णन cm अथवा mm (पारा स्तंभ) के पदों में किया जाता है। 1 mm (Hg) दाब का तुल्यांकी दाब 1 टॉर (torr) कहलाता है (टॉरिसेली के सम्मान में)।

$$1 \text{ torr} = 133 \text{ Pa}$$

औषध विज्ञान तथा शरीर क्रिया विज्ञान (फिजिओलॉजी) में दाब के मात्रक के रूप में mm (Hg) तथा टॉर (torr) का उपयोग किया जाता है। मौसम विज्ञान में दाब का सामान्य मात्रक बार (bar) तथा मिलिबार (millibar) लिया जाता है।

$$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$$

दाबांतर को मापने के लिए खुली-नली मैनोमीटर एक लाभप्रद उपकरण है। इस युक्ति में एक U आकार की नली होती है जिसमें उपयुक्त द्रव भरा होता है अर्थात् कम दाबांतर मापने के लिए कम घनत्व का द्रव (जैसे तेल) तथा अधिक दाबांतर के लिए अधिक घनत्व का द्रव (जैसे पारा) भरा जाता है। नली का एक सिरा वायुमण्डल में खुला छोड़ दिया जाता है तथा दूसरा सिरा जिस निकाय का दाब ज्ञात करना है, उससे जोड़ दिया जाता है। [देखिए चित्र 10.5 (b)]। बिंदु A पर दाब बिंदु B पर दाब के बराबर है। जिस दाब को हम सामान्यतः मापते हैं वह वास्तव में प्रमापी अर्थवा गेज दाब होता है। यह  $P - P_a$  के बराबर होता है जो समीकरण (10.8) द्वारा दिया जाता है तथा मैनोमीटर की ऊँचाई  $h$  के अनुपाती होता है।

U नली में भरे द्रव के तलों में दोनों ओर समान दाब होता है। दाब तथा ताप के विस्तृत परिसर में द्रव के घनत्व में बहुत कम परिवर्तन होता है। हम प्रस्तुत विवेचन के लिए इसे स्थिर मान सकते हैं। दूसरी ओर दाब तथा ताप परिवर्तन के साथ गैसों के घनत्व में बहुत अधिक परिवर्तन परिलक्षित होता है। अतः गैसों की तुलना में विपरीत द्रवों को अधिकांश रूप से असंपीड़य माना जाता है।

► **उदाहरण 10.3** समुद्र तल पर वायुमंडल का घनत्व  $1.29 \text{ kg/m}^3$  है। यह मानते हुए कि ऊँचाई के साथ घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, ज्ञात कीजिए कि वायुमंडल का विस्तार कितनी ऊँचाई तक है?

**हल :** हम समीकरण (10.8) का उपयोग करते हैं

$$\rho gh = 1.29 \text{ kg m}^{-3} \times 9.8 \text{ m s}^{-2} \times h \text{ m} = 1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$h = 7989 \text{ m} \approx 8 \text{ km}$$

वास्तव में, ऊँचाई के साथ वायु के घनत्व में कमी होती जाती है। ऐसा ही गुरुत्वीय त्वरण  $g$  के साथ भी होता है। वायुमण्डलीय आवरण का विस्तार घटते दाब के साथ लगभग  $100 \text{ km}$  ऊँचाई तक है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि समुद्र तल पर वायुमण्डलीय दाब सदैव ही  $760 \text{ mm (Hg)}$  नहीं होता। इसमें  $10 \text{ mm (Hg)}$  अथवा अधिक की कमी तूफान के आने की सूचक होती है।

► **उदाहरण 10.4** समुद्र के नीचे  $1000 \text{ m}$  गहराई पर (a) परम दाब कितना है? (b) गेज़ दाब कितना है? (c) इस गहराई पर पनडुब्बी की  $20 \text{ cm} \times 20 \text{ cm}$  क्षेत्रफल वाली खिड़की (जिसके आंतरिक भाग का दाब समुद्र तल पर वायुमण्डलीय दाब के बराबर रखा गया है) पर आरोपित बल का आकलन कीजिए। (समुद्र जल का घनत्व  $1.03 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$ ,  $g = 10 \text{ m s}^{-2}$ )

**हल :** यहाँ  $h = 1000 \text{ m}$  तथा  $\rho = 1.03 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$

(a) समीकरण (10.7) से परम दाब

$$\begin{aligned} P &= P_a + \rho gh \\ &= 1.01 \times 10^5 \text{ Pa} + 1.03 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3} \\ &\times 10 \text{ m s}^{-2} \times 1000 \text{ m} \\ &= 104.01 \times 10^5 \text{ Pa} \\ &\approx 104 \text{ atm} \end{aligned}$$

(b) गेज़ दाब  $= P - P_a = \rho gh \approx P_g$

$$\begin{aligned} P_g &= 1.03 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3} \times 10 \text{ m s}^{-2} \times 1000 \text{ m} \\ &= 103 \times 10^5 \text{ Pa} \\ &\approx 103 \text{ atm} \end{aligned}$$

(c) पनडुब्बी के बाहर दाब  $P = P_a + \rho gh$  और अंदर दाब  $P_a$  है। इसलिए खिड़की पर आपतित कुल दाब गेज़ दाब  $P_g = \rho gh$  है। चूँकि खिड़की का क्षेत्रफल  $A = 0.04 \text{ m}^2$  है अतः आपतित बल

$$F = P_g A = 103 \times 10^5 \text{ Pa} \times 0.04 \text{ m}^2 = 4.12 \times 10^5 \text{ N} \blacktriangleleft$$

### आर्किमिडीज का सिद्धांत

ऐसा प्रतीत होता है कि तरल में रखे किसी पिण्ड को तरल आंशिक सहारा प्रदान करता है। विराम स्थिति के किसी तरल में जब किसी पिण्ड को पूर्ण या आंशिक रूप से ढूबोया जाता है तो तरल पिण्ड के समर्पक पृष्ठ पर दाब डालता है। पिण्ड के निचले पृष्ठ पर ऊपरी पृष्ठ की अपेक्षा दाब अधिक होता है क्योंकि तरल में दाब गहराई बढ़ने के साथ-साथ बढ़ता है। सभी बलों का परिणामी बल उपरमुखी बल है जिसे उत्त्लावन बल कहते हैं। माना कि किसी तरल में एक बेलनाकार पिण्ड को ढूबोया जाता है। पिण्ड की तली पर ऊर्ध्वमुखी बल उसके शीर्ष पर लगने वाले अधोमुखी बल से अधिक है। तरल पिण्ड पर एक परिणामी बल या उत्त्लावन बल ( $P_2 - P_1$ )  $A$  लगाता है। समीकरण (10.4) में हमने देखा कि  $(P_2 - P_1) A = \rho gh A$ ।  $h A$  पिण्ड का आयतन है तथा  $\rho h A$  तरल के तुल्य आयतन का भार है।  $(P_2 - P_1) A = mg$ । इस प्रकार आरोपित ऊर्ध्वबल विस्थापित तरल के भार के बराबर है।

यह परिणाम पिण्ड की आकृति पर निर्भर नहीं करता है, यह सभी आकृति के पिण्डों के लिए सत्य है। बेलनाकार पिण्ड के बल सुविधा के लिए लिया गया था। यह आर्किमिडीज का सिद्धांत है। पूर्ण ढूबे पिण्ड द्वारा विस्थापित तरल का आयतन उसके अपने आयतन के तुल्य होता है। यदि ढूबे हुए पिण्ड का घनत्व तरल के घनत्व से अधिक है तो पिण्ड ढूब जाएगा क्योंकि पिण्ड का भार ऊर्ध्वमुखी प्रणोद से अधिक होगा। यदि ठोस का घनत्व तरल से कम है वह आंशिक रूप से ढूबा हुआ तैरेगा। ढूबे हुए भाग के आयतन का आकलन करने के लिए माना कि पिण्ड का कुल आयतन  $V_s$  है तथा इसका अंश आयतन  $V_p$  तरल में ढूबा है। तो ऊर्ध्वमुखी बल जो विस्थापित तरल के भार  $\rho_s g V_p$  के तुल्य है, पिण्ड के भार के तुल्य होना चाहिए।  $\rho_s g V_s = \rho_s g V_p$  अथवा  $\rho_s / \rho_p = V_p / V_s$  तैरते पिण्ड का आभासी भार शून्य है।

संक्षिप्त में यह सिद्धांत है 'किसी तरल में (आंशिक या पूर्ण रूप से) ढूबे पिण्ड के भार में कमी पिण्ड द्वारा विस्थापित तरल के भार के तुल्य होती है।'

### 10.2.4 द्रव चालित मशीन

आइये अब हम देखते हैं कि पात्र में रखे तरल पर जब दाब परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है? एक क्षैतिज बेलन पर विचार करें जिसमें पिस्टन लगा है तथा उसके विभिन्न बिंदुओं पर तीन ऊर्ध्व ट्यूब लगी हैं। ऊर्ध्व ट्यूब में द्रव स्तंभ की ऊँचाई क्षैतिज बेलन में तरल का दाब दर्शाती है। यह सभी ऊर्ध्व ट्यूबों में अनिवार्यतः समान होती है। यदि पिस्टन को धकेलते हैं तो सभी ट्यूबों में तरल का स्तर उठ जाता है, तथा पुनः यह सभी में समान हो जाता है।

यह दर्शाता है कि जब बेलन पर दाब बढ़ाया जाता है तो यह पूर्ण तरल से समान रूप में वितरित हो जाता है। हम कह सकते हैं कि पात्र में रखे तरल के किसी भाग पर जब बाह्य दाब आपतित होता है, तो यह बिना हास के सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है। तरल दाब के संचरण के लिए यह “पास्कल का नियम” है तथा दैनिक जीवन में इसके कई उपयोग हैं।

कई युक्तियाँ जैसे द्रव चालित उत्थापक और द्रव चालित ब्रेक इस नियम पर आधारित हैं। इन युक्तियों में दाब संचरण के लिए तरलों का उपयोग किया जाता है। चित्र 10.6


$$\frac{A_2 A_2}{F_2 A_1} = \frac{A_2}{A_1} F_1 = \frac{\pi (1/2 \times 10^{-2} \text{ m})^2}{\text{पर सीधा बल } F_1 \text{ आरोपित करता है}} \times 10 \text{ N}$$

संचरित होता है तथा अनुप्रस्थ काट  $A_2$  के बड़े बेलन जिसमें पिस्टन लगा है पर ऊर्ध्वमुखी बल  $P \times A_2$  के रूप में प्राप्त होता है। अतएव, पिस्टन अधिक बल को संतुलित (जैसे प्लेटफॉर्म पर रखे कार या ट्रक के अधिक भार) कर सकता है

$$F_2 = P A_2 = \quad | A_1 \text{ पर बल बदलकर प्लेटफॉर्म को ऊपर}$$

या नीचे लाया जा सकता है। इस प्रकार प्रयुक्त बल गुणक

से बढ़ जाता है। यह गुणक युक्ति का यांत्रिक लाभ कहलाता है। निम्न उदाहरण इसे स्पष्ट करता है।




**चित्र 10.6** द्रव चालित उत्थापक, भारी बोझ उठाने की एक युक्ति के कार्य करने के सिद्धांत की व्याख्या का योजनाबद्ध आरेख।

► **उदाहरण 10.5** भिन्न-भिन्न अनुप्रस्थ काट वाली दो पिचकारियों में (बिना सुई के) पानी भरा है और इन्हें पानी से भरी रबर नली से कसकर जोड़ दिया गया है। छोटे तथा बड़े पिस्टन के व्यास क्रमशः 1 cm तथा 3 cm हैं। (a) जब छोटे पिस्टन पर 10 N का बल लगाया जाता है तो बड़े पिस्टन पर लगे बल का आकलन कीजिए। (b) यदि छोटे पिस्टन की 6 cm अंदर धक्का दिया जाता है तो बड़ा पिस्टन कितना बाहर चलेगा?

**हल :** (a) चौंकि बिना हास के दाब संपूर्ण द्रव में संचरित होता है,

$$= 90 \text{ N}$$

(b) पानी पूरा असंपूर्ण माना जाता है। छोटे पिस्टन के अन्दर चलने से तुल्य आयतन बड़े पिस्टन द्वारा बाहर की ओर चलने को बाध्य करता है।



#### आर्किमिडीज (287-212 ई. पू.)

ग्रीस के दर्शनिक, गणितज्ञ, वैज्ञानिक तथा अभियंता थे। उन्होंने गुलेल की खोज की तथा घिरनियों एवं उत्तोलकों के संयोजन से भारी बोझों के संचालन के लिए एक तंत्र का आविष्कार किया। उनके अपने देश साइराक्यूज के राजा हीरो II ने आर्किमिडीज को सोने का ठोस मुकुट देकर यह कहा कि मुकुट को बिना तोड़े ही वह यह निर्धारित करे कि मुकुट शुद्ध सोने का बना है, अथवा उसमें कोई सस्ती धातु; जैसे—चाँदी मिलाई गई है। पानी से लबालब भरे टब में लेटते समय उन्होंने अपने भार में अंशिक कमी अनुभव की, जिससे उन्हें अपनी समस्या का हल मिल गया। जिसे पाकर आर्किमिडीज इतने उत्तेजित हो गए कि, दंतकथा के अनुसार, टब से बाहर निकलकर, साइराक्यूज की गलियों में “यूरेका” – यूरेका (अर्थात् “मैंने पा लिया” – “मैंने पा लिया”) चिल्लाते हुए दौड़ पड़े। उस समय वह यह भी भूल गए कि उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है।

$$L_1 A_1 = L_2 A_2$$

$$L_2 = \frac{A_1}{A_2} L_1 = \frac{\pi (1/2 \times 10^{-2} \text{ m})^2}{\pi (3/2 \times 10^{-2} \text{ m})^2} \times 6 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$\approx 0.67 \times 10^{-2} \text{ m} = 0.67 \text{ cm}$$

**नोट :** दोनों पिस्टनों के लिए वायुमण्डलीय दाब उभयनिष्ठ है अतः इसे छोड़ दिया गया है। ◀

**उदाहरण 10.6** एक कार उत्थापक में छोटे पिस्टन जिसकी त्रिज्या 5 cm है पर  $F_1$  बल संपीड़य वायु लगाती है। यह दाब 15 cm त्रिज्या वाले दूसरे पिस्टन पर संचरित होता है (चित्र 10.6)। यदि उठाई जाने वाली कार की संहति 1350 kg हो तो  $F_1$  का आकलन कीजिए। इस कार्य को संपन्न करने के लिए आवश्यक दाब क्या है? ( $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ )

**हल :** क्योंकि संपूर्ण तरल में दाब बिना हास के संचरित होता है।

$$F_1 = \frac{A_1}{A_2} F_2 = \frac{\pi (5 \times 10^{-2} \text{ m})^2}{\pi (15 \times 10^{-2} \text{ m})^2} (1350 \text{ N} \times 9.8 \text{ m s}^{-2})$$

$$= 1470 \text{ N}$$

$$\approx 1.5 \times 10^3 \text{ N}$$

इस बल के संगत वायु दाब


$$P = \frac{F_1}{A_1} = \frac{1.5 \times 10^3 \text{ N}}{\pi (5 \times 10^{-2} \text{ m})^2} = 1.9 \times 10^5 \text{ Pa}$$

यह वायुमण्डलीय दाब का लगभग दुगुना है। ◀

मोटर कार में द्रव चालित ब्रेक भी इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जब हम अपने पैर से थोड़ा सा बल पैडल पर लगाते हैं तो पिस्टन मास्टर बेलन के अंदर जाता है और उत्पन्न दाब ब्रेक तेल द्वारा पिस्टन के बड़े क्षेत्रफल पर संचरित होता है। पिस्टन पर एक बड़ा बल कार्य करता है। इसके नीचे की ओर ढक्केले जाने पर ब्रेक शू फैल कर ब्रेक लाइन को दबाता है। इस प्रकार पैडल पर थोड़ा सा बल पहिए पर अधिक बल मंदन उत्पन्न करता है। इस निकाय का एक प्रमुख लाभ यह है कि पैडल को दबाने से उत्पन्न दाब चारों पहियों से संलग्न बेलनों में समान रूप से संचरित होता है जिससे ब्रेकों का प्रभाव सभी पहियों पर बराबर पड़ता है।

### 10.3 धारारेखी प्रभाव

अब तक हमने विराम तरलों के बारे में अध्ययन किया। तरल प्रवाह के अध्ययन को तरल गतिकी कहते हैं। जब हम पानी की टोटी को धीरे से खोलते हैं तो आरंभ में पानी उर्मिहीन गति से बहता है। लेकिन जब पानी की गति बढ़ती है तो वह अपनी उर्मिहीन गति को छोड़ देता है। तरलों की गति का अध्ययन करने में हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कि किसी स्थान पर किसी क्षण विशेष पर, तरल के विभिन्न कणों पर क्या हो रहा है। किसी तरल का प्रवाह अपरिवर्ती प्रवाह कहलाता है, यदि किसी स्थान से गुज़रने वाले तरल के प्रत्येक कण का वेग समय में अचर रहता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि स्थान के विभिन्न बिंदुओं पर वेग समान है। जैसे-जैसे कोई विशिष्ट कण एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर अग्रसर होता है, इसका वेग बदल सकता है, अर्थात् किसी दूसरे बिंदु पर कण का वेग भिन्न हो सकता है। परन्तु दूसरे बिंदु से गुज़रने पर कण ठीक वैसा ही व्यवहार करता है जैसा कि वहाँ से ठीक पहले गुज़रने वाले कण ने किया। प्रत्येक कण निष्कोण पथ पर चलता है और कणों के पथ एक दूसरे को नहीं काटते।



**चित्र 10.7** धारारेखाओं का अर्थ (a) किसी तरल का प्रूर्वी प्रपथ (b) धारारेखी प्रभाव का क्षेत्र।

किसी तरल अपरिवर्ती प्रवाह में जिस पथ पर कण गमन करता है उसे धारारेखा कहते हैं। किसी बिंदु पर तरल कण का वेग सदैव ही धारारेखा के उसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है जो धारारेखा प्रवाह को परिभाषित करता है। जैसा कि चित्र 10.7 (a) में दर्शाया गया है, किसी कण के पथ को लेते हैं। वक्र यह दर्शाता है कि तरल का कण समय के साथ किस प्रकार गति करता है। वक्र PQ तरल प्रवाह का स्थायी प्रतिचित्र है जो यह दर्शाता है कि तरल किस प्रकार धारारेखा में प्रवाहित होता है। कोई भी दो धारारेखाएँ एक दूसरे को नहीं काटतीं यदि वह ऐसा करती हैं (अर्थात् काटती हैं) तो किसी बिंदु पर तरल का प्रवाह स्थिर नहीं होता तथा एक तरल कण

किसी भी दिशा में गति करने लगेगा और प्रवाह अपरिवर्ती नहीं रहेगा। इसलिए अपरिवर्ती प्रवाह में प्रवाह का मानचित्र समय में स्थिर रहता है। हम निकटवर्ती धारारेखाओं को कैसे खींचते हैं? यदि हम प्रत्येक प्रभावित कण की धारारेखा को प्रदर्शित करने की इच्छा रखते हैं तो हम रेखाओं के सांतत्य में सिमट जाएँगे। तरल प्रवाह की दिशा में लंबवत समतलों पर विचार कीजिए अर्थात् चित्र 10.7 (b) में तीन बिंदु P, R तथा Q पर। इन समतल खंडों का चुनाव इस प्रकार किया जाता है कि इनकी सीमाएँ धारारेखाओं के समान समूह द्वारा निर्धारित हो जाएँ। इसका अर्थ है कि P, R तथा Q पर दर्शाये गये लंबवत समतल पृष्ठों से प्रवाहित होने वाले तरल कणों की संख्या समान है। इस प्रकार यदि P, R, तथा Q पर तरल कणों के वेग परिमाण क्रमशः  $v_p$ ,  $v_r$  तथा  $v_q$  हैं तथा इन तलों के क्षेत्रफल क्रमशः  $A_p$ ,  $A_r$  और  $A_q$  हैं तो छोटे से समय अंतराल  $\Delta t$  में  $A_p$  से गुज़रने वाले तरल की संहति  $\rho_p A_p v_p \Delta t$  है। इसी प्रकार  $A_r$  से होकर प्रवाहित तरल की संहति  $\Delta m_r = \rho_r A_r v_r \Delta t$  और  $\Delta m_q = \rho_q A_q v_q \Delta t$  होगी। सभी मामलों में तरल के बाहर निकलने की संहति उस स्थान में आने वाले तरल की संहति के बराबर होगी।

अतएव,

$$\rho_p A_p v_p \Delta t = \rho_r A_r v_r \Delta t = \rho_q A_q v_q \Delta t \quad (10.9)$$

असंपीड्य तरल के प्रवाह के लिए

$$\rho_p = \rho_r = \rho_q$$

तब समीकरण (10.9)

$$A_p v_p = A_r v_r = A_q v_q \quad (10.10)$$


में बदल जाता है। जिस सांतत्य-समीकरण कहते हैं तथा असंपीड्य तरल प्रभाव में यह संहति संरक्षण का कथन है।

सामान्यतः  $A_v$  = स्थिरांक  $(10.11)$


$A_v$  आयतन अभिवाह या प्रवाह दर देता है। यह नली प्रवाह में सर्वत्र स्थिर रहता है अतः संकरे स्थानों पर जहाँ धारा रेखाएँ पास-पास हैं वहाँ वेग बढ़ जाता है तथा इसका विलोमतः चित्र 10.7b से स्पष्ट है कि  $A_r > A_q$  या  $v_r < v_q$  R से Q को प्रवाहित तरल त्वरित होता है। क्षेत्रिज पाइप में यह तरल दाब में परिवर्तन से संबद्ध है।

तरल के कम वेग से धारा प्रवाह प्राप्त होता है। एक सीमांत मान के पश्चात जिसे क्रांतिक वेग कहते हैं, यह धारा प्रवाह प्रक्षुद्ध प्रवाह में बदल जाता है। जब एक तेज़ प्रवाही धारा चट्टान से टकराती है तो हम देख सकते हैं कि कैसे छोटे-छोटे फेन (foam) भँवर जैसे बनते हैं जिन्हें दूध-धारा (white water rapids) कहते हैं।

चित्र 10.8 कुछ प्ररूपी प्रवाह की धारारेखाएँ दर्शायी गई हैं। उदाहरण के लिए चित्र 10.8(a) में स्तरीय प्रवाह दर्शाया गया है जहाँ तरल के विभिन्न बिंदुओं पर वेगों के परिमाण भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, परन्तु उनकी दिशाएँ एक दूसरे से समानांतर हैं। चित्र 10.8 (b) में प्रक्षुद्ध प्रवाह आलेखित किया गया है।



(a)



(b)

चित्र 10.8 (a) तरल प्रवाह की कुछ धारारेखाएँ (b) प्रवाह के लंबवत रखी चपटी लेट से टकराता वायु जेट। यह प्रक्षुद्ध प्रवाह का एक उदाहरण है।

#### 10.4 बर्नूली का सिद्धांत

तरल प्रवाह एक जटिल परिघटना है। परन्तु ऊर्जा संरक्षण का उपयोग करते हुए हम अपरिवर्ती अथवा धारा-प्रवाह के कुछ विशिष्ट गुणों को प्राप्त कर सकते हैं।

परिवर्ती अनुप्रस्थ काट के पाइप में तरल प्रवाह पर विचार कीजिए। माना कि पाइप परिवर्ती ऊँचाइयों पर है जैसा कि चित्र 10.9 में दर्शाया गया है। अब माना कि पाइप में एक असंपीड्य तरल अपरिवर्ती प्रवाह से प्रवाहित है। सांतत्य समीकरण के अनुसार इसके वेग में परिवर्तन होना चाहिए। त्वरण उत्पन्न

#### डेनियल बर्नूली (1700-1782)



स्विटजरलैंड के एक वैज्ञानिक तथा गणितज्ञ थे जिन्होंने लिओनार्ड ऑयलर के साथ मिलकर गणित का फ्रेंच अकादमी पुरस्कार दस बार जीतने का कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र का भी अध्ययन किया तथा कुछ समय के लिए वे बैस्ले, विटजरलैंड में शारीर रचना विज्ञान तथा बनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर के पद पर भी रहे। उनका अत्यधिक सुविख्यात कार्य द्रवगतिकी, एक विषय जिसे उन्होंने स्वयं एकल सिद्धांतः ऊर्जा संरक्षण से विकसित किया, के क्षेत्र में है। उनके कार्यों में कैलकुलस, प्रायिकता, कंपायमान डोरी का सिद्धांत, तथा अनुप्रयुक्त गणित समिलित हैं। उन्हें गणितीय भौतिकी का संस्थापक कहा जाता है।

करने के लिए एक बल की आवश्यकता है जो इसे धेरे हुए तरल से उत्पन्न होता है। भिन्न-भिन्न भागों में दाब भिन्न होना चाहिए। पाइप के दो बिंदुओं के बीच दाबांतर का संबंध वेग परिवर्तन (गति ऊर्जा परिवर्तन) तथा उन्नयन (ऊँचाई) में परिवर्तन (स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन) दोनों में प्रदर्शित करने वाला सामान्य व्यंजक, बर्नूली का समीकरण है। इस संबंध को स्विस भौतिक डेनियल बर्नूली ने विकसित किया था।

दो क्षेत्रों 1 (अर्थात् BC) तथा 2 (अर्थात् DE) क्षेत्रों में प्रवाह को लें। आरंभ में B तथा D के बीच तरल को लें। अत्यंत अल्प अंतराल  $\Delta t$  में यह तरल प्रवाहित होगा। माना कि B पर चाल  $v_1$  तथा D पर  $v_2$  हैं। तब B पर तरल  $v_1 \Delta t$ , C की ओर प्रवाहित होगा ( $v_1 \Delta t$  इतना छोटा है कि हम BC का समान अनुप्रस्थ काट ले सकते हैं)। इसी समय अंतराल  $\Delta t$  में तरल जो आरंभ में D पर है E की ओर प्रवाहित होगा तथा  $v_2 \Delta t$  दूरी तय करेगा। दो क्षेत्रों के बाँधने वाले  $A_1$ ,  $A_2$  क्षेत्रफल वाले समतल फलकों पर, जैसा दिखाया गया है, दाब  $P_1$ ,  $P_2$  कार्य करते हैं। बाएँ सिरे (BC) पर तरल पर किया गया कार्य  $W_1 = P_1 A_1 (v_1 \Delta t) = P_1 \Delta V$  है। क्योंकि दोनों क्षेत्रों से समान आयतन का तरल प्रवाहित होता है (सांतत्य समीकरण से) दूसरे सिरे (DE) पर तरल द्वारा किया गया कार्य  $W_2 = P_2 A_2 (v_2 \Delta t) = P_2 \Delta V$  है। अथवा तरल पर किया गया कार्य  $-P_2 \Delta V$  है। अतः द्रव पर किया गया कुल कार्य

$$W_1 - W_2 = (P_1 - P_2) \Delta V \text{ है।}$$

इस कार्य का कुछ भाग तरल की गतिज ऊर्जा परिवर्तित करने में चला जाता है, तथा शेष भाग तरल की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित करने में चला जाता है। यदि पाइप प्रवाहित तरल का घनत्व  $\rho$  तथा  $\Delta m = \rho A_1 v_1 \Delta t = \rho \Delta V$  की संहति  $\Delta t$  समय में पाइप से प्रवाहित है तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन

$$\Delta U = \rho g \Delta V (h_2 - h_1)$$

गतिज ऊर्जा में परिवर्तन

$$\Delta K = \left( \frac{1}{2} \right) \rho \Delta V (v_2^2 - v_1^2)$$

तरल के इस आयतन पर हम कार्य-ऊर्जा प्रमेय (अध्याय 6) का उपयोग कर सकते हैं जिससे हमें निम्नलिखित संबंध प्राप्त होता है।

$$(P_1 - P_2) \Delta V = \rho \Delta V (v_2^2 - v_1^2) + \rho g \Delta V (h_2 - h_1)$$

प्रत्येक पद को  $\Delta V$  से विभाजित करने पर


$$(P_1 - P_2) = \rho (v_2^2 - v_1^2) + \rho g (h_2 - h_1)$$

उपरोक्त पदों को पुनः व्यवस्थित करने पर हम प्राप्त करते हैं :

$$P_1 + \rho v_1^2 + \rho gh_1 = P_2 + \rho v_2^2 + \rho gh_2 \quad (10.12)$$

यह बर्नूली समीकरण है। चूंकि पाइपलाइन की लंबाई में 1 व 2 किन्हीं दो स्थितियों को दर्शाते हैं अतः हम सामान्य रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि

$$P + \rho v^2 + \rho gh = \text{स्थिरांक} \quad (10.13)$$



**चित्र 10.9** परिवर्ती अनुप्रस्थकाट के किसी पाइप में किसी आदर्श तरल का प्रवाह,  $v_1 \Delta t$  लंबाई के खंड में भरा तरल समय  $\Delta t$  में  $v_2 \Delta t$  लंबाई के खंड तक गति कर लेता है।

दूसरे शब्दों में, बर्नूली के कथन को हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं: “जब हम किसी धारा रेखा के अनुदिश गति करते हैं, तो

दाब  $P$  प्रति एकांक आयतन गतिज ऊर्जा तथा प्रति एकांक आयतन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ( $\rho gh$ ) का योग अचर रहता है।”

नोट करें कि ऊर्जा संरक्षण के नियम का उपयोग करते समय यह माना गया है कि घर्षण के कारण कोई ऊर्जा क्षति नहीं होती। परन्तु वास्तव में, जब तरल प्रवाह होता है, तो आंतरिक घर्षण के कारण कुछ ऊर्जा की हानि हो जाती है। इसकी व्युत्पत्ति तरल की विभिन्न सतहों के भिन्न-भिन्न वेगों से प्रवाह के कारण होती है। यह सतहें एक दूसरे पर घर्षण बल लगाती

हैं और परिणामस्वरूप ऊर्जा का ह्रास होता है। तरलों के इस गुण को श्यानता कहते हैं जिसकी विस्तार से व्याख्या बाद के खंड में की गई है। तरल की क्षय गतिज ऊर्जा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अतः बर्नूली का समीकरण शून्य श्यानता अथवा असान्य तरलों पर लागू होता है। बर्नूली प्रमेय पर एक और प्रतिबंध है कि यह असंपीड़्य तरलों पर ही लागू होता है, क्योंकि तरलों की प्रत्यास्थ ऊर्जा को नहीं लिया गया है। वास्तव में इसके कई उपयोग हैं जो कम श्यानता तथा असंपीड़्य तरलों की बहुत सी घटनाओं की व्याख्या कर सकते हैं। अस्थिर अथवा विक्षोभ प्रवाह में भी बर्नूली समीकरण काम नहीं आता क्योंकि इसमें वेग तथा दाब समय में लगातार अस्थिर रहते हैं।

जब तरल विरामावस्था में होता है अर्थात् प्रत्येक स्थान पर इसके कणों का वेग शून्य है, बर्नूली समीकरण निम्न प्रकार हो जाता है:

$$P_1 + \rho gh_1 = P_2 + \rho gh_2 \\ (P_1 - P_2) = \rho g (h_2 - h_1)$$

जो समीकरण (10.6) के ही समान है।

#### 10.4.1 चाल का बहिर्वाह : टॉरिसेली का नियम


बहिर्वाह शब्द का अर्थ है तरल का बहिर्गमन। टॉरिसेली ने यह पता लगाया कि किसी खुली टंकी से तरल के बहिर्वाह की चाल  $v_2 = \frac{A_1}{A_2} \times \text{चाल}$  को मुक्त रूप से गिरते पिण्ड की चाल के सूत्र के समरूप सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है।  $\rho$  घनत्व के द्रव से भरी किसी ऐसी टंकी पर विचार कीजिए जिसमें टंकी की तली से  $y_1$  ऊँचाई पर एक छोटा छिद्र है (देखिए चित्र 10.10)। द्रव के ऊपर, जिसका पृष्ठ  $y_2$  ऊँचाई पर है, वायु है जिसका दाब  $P$  है। सांतत्य समीकरण (समीकरण 10.9) से

$$v_1 A_1 = v_2 A_2$$

यदि टंकी की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल  $A_2$  छिद्र की अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल  $A_1$  की तुलना में काफी अधिक है ( $A_2 >> A_1$ ), तब हम शीर्ष भाग पर तरल को सन्निकटतः विराम में मान सकते हैं, अर्थात्  $v_2 = 0$ । तब बिंदु 1 तथा 2 पर बर्नूली का समीकरण लागू करते हुए तथा यह लेते हुए कि छिद्र पर दाब  $P$ , वायुमण्डलीय दाब के बराबर है, अर्थात्  $P_1 = P_a$ , समीकरण (10.12) से हमें यह संबंध प्राप्त होता है।

$$P_a + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g y_1 = P + \rho g y_2$$

$y_2 - y_1 = h$  लेने पर



चित्र 10.10 टॉरिसेली नियम। पात्र के पाश्व से बहिर्वाह की चाल  $v_1$  बर्नूली समीकरण द्वारा प्राप्त होती है। यदि पात्र का शीर्ष भाग खुला है तथा वायुमण्डल के संपर्क में है

$$\text{तब } v_1 = \sqrt{2gh}$$

$$v_1 = \sqrt{2g h + \frac{2(P - P_a)}{\rho}} \quad (10.14)$$

जब  $P >> P_a$  है तथा  $2gh$  की उपेक्षा की जा सकती है, तब बहिर्वाह की चाल का निर्धारण पात्र-दाब द्वारा किया जाता है। ऐसी ही स्थिति रॉकेट-नोडन में होती है। इसके विपरीत यदि टंकी का ऊपरी भाग खुला होने के कारण वायुमण्डल के संपर्क में है तो  $P = P_a$  तब

$$v_1 = \sqrt{2gh} \quad (10.15)$$

यह किसी मुक्त रूप से गिरते पिण्ड की चाल है। समीकरण (10.14) को टॉरिसेली का सिद्धांत कहते हैं।

#### 10.4.2 वैंटुरीमापी


वैंटुरीमापी किसी असंपीड़्य तरल में प्रवाह-वेगों को मापने की एक युक्ति है। इसमें एक चौड़े व्यास वाली नली होती है जिसके मध्य में छोटा संकीर्ण होता है जैसा (चित्र 10.11) में दर्शाया गया है। इसमें U-नली के रूप में एक मैनोमीटर, जिसकी एक भुजा चौड़ी गर्दन के बिंदु तथा दूसरी संकुचित गर्दन से जुड़ी होती है जैसा कि (चित्र 10.11) में दर्शाया गया है। मैनोमीटर में  $\rho_m$  घनत्व का द्रव भरा होता है। इस युक्ति द्वारा नली की चौड़ी गर्दन जिसका क्षेत्रफल  $A$  है, से प्रवाहित द्रव की चाल  $v_1$  मापनी होती है। संकुचित भाग पर, समीकरण (10.10) से,

चाल  $v_2 = \frac{A}{a} v_1$ । तब बर्नूली समीकरण का उपयोग करके हमें प्राप्त होता है :

$$P_1 + \rho v_1^2 = P_2 + \rho v_2^2 (A/a)^2$$

जिससे

$$P_1 - P_2 = \rho v_1^2 [ ] \quad (10.16)$$



चित्र 10.11 वैंटुरीमापी का व्यवस्था आरेख।

यह दाबांतर U नली की संकुचित भुजा में दूसरी भुजा की तुलना में तरल के उच्चतर स्तर का कारण है। भुजाओं की ऊँचाई में अंतर  $h$  दाबांतर की माप है।

$$P_1 - P_2 = \rho_m g h = \frac{1}{2} \rho v_1^2$$


जिससे चौड़ी गर्दन पर तरल का वेग

$$v_1 = \quad (10.17)$$

इस सिद्धांत के बहुत से अनुप्रयोग हैं। मोटर वाहन अथवा स्वचालित वाहन में कार्बूरेटर में वैंटुरीवाहिका (नोज़ल) होती है जिसमें से तीव्र गति से वायु प्रवाहित होती है। संकरी गर्दन पर दाब कम होता है इसलिए पैट्रोल (गैसोलीन) भीतर की ओर चैम्बर में चूस लिया जाता है ताकि दहन के लिए वायु तथा ईंधन का सही मिश्रण प्राप्त हो सके। फिल्टर पम्प या चूपित्र, बुनसन बर्नर, कणित्र तथा स्प्रेयर (देखिए चित्र 10.12) इत्र के लिए अथवा कीटनाशकों के छिड़काव के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं।

**उदाहरण 10.7 रक्त वेग :** किसी मूर्छित कुत्ते की बड़ी धमनी में रक्त का प्रवाह किसी वैंटुरीमापी से होकर परिवर्तित किया जाता है। इस युक्ति के चौड़े भाग की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल धमनी की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल,  $A = 8 \text{ mm}^2$  के बराबर है। युक्ति के संकरे भाग का क्षेत्रफल  $a = 4 \text{ mm}^2$  है। धमनी में दाब हास 24 Pa है। धमनी रक्त के प्रवाह की चाल क्या है?

हल सारणी 10.1 से रक्त का घनत्व  $1.06 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$  लेते हैं। क्षेत्रफलों का अनुपात  $= 2$  है। समीकरण (10.17) का उपयोग करके



**चित्र 10.12 स्प्रेयर।** पिस्टन उच्च ताप पर वायु निकालता है जिसके फलस्वरूप पात्र की गर्दन पर दाब कम हो जाता है।

#### 10.4.3 रक्त प्रवाह और हार्ट अटैक (दिल का दौरा)

धमनी में बर्नूली सिद्धांत से रक्त प्रवाह को समझने में सहायता मिलती है। इसकी भीतरी दीवार पर प्लाक (Plaque) का जमाव होने के कारण धमनी भीतर से संकीर्ण हो जाती है। इन संकरी धमनियों से रक्त प्रवाहित कराने के लिए हृदय की गतिविधि पर अधिक बोझ पड़ जाता है। इस क्षेत्र में रक्त के प्रवाह की चाल बढ़ जाती है और भीतरी दाब घट जाता है तथा बाह्य दाब के कारण धमनी दब जाती है। हृदय इस धमनी को खोलने के लिए रक्त को धक्का देता है। जैसे ही रक्त इसे

खोलकर बाहर की ओर तीव्र गति से प्रवाहित होता है, आंतरिक दाब पुनः गिर जाता है, और धमनी पुनः दब जाती है। इससे हार्ट अटैक हो सकता है।

#### 10.4.4 गतिक उत्थापक (लिफ्ट)

किसी पिण्ड पर गतिक उत्थापक एक बल है। जैसे निम्न के तरल में गति के कारण वायुयान के पंख पर, जलपर्णी या एक घूमती गेंद पर। कई खेल जैसे क्रिकेट, टेनिस, बेसबॉल या गोलक में हम देखते हैं कि वायु में जाती हुई बॉल अपने परवलीय पथ से हट जाती है। इस हटाव को आंशिक रूप से बर्नूली सिद्धांत से समझाया जा सकता है।

(i) बिना घूमे गेंद का चलना : तरल के सापेक्ष बिना घूमती गतिमान गेंद के चारों ओर चित्र 10.13(a) में धारारेखाएँ प्रदर्शित हैं। धारारेखाओं की सममिती से यह स्पष्ट है कि तरल में गेंद के ऊपर तथा नीचे संगत बिंदुओं पर उसका वेग समान है, जिससे दाबांतर शून्य होता है। अतः गेंद पर वायु कोई ऊर्ध्वमुखी अथवा अधोमुखी बल नहीं लगती।

(ii) घूमती हुई गेंद की चाल : चक्रण करती हुई गेंद अपने साथ वायु को घसीटती है। यदि फलक खुरदुरा हो तो अधिक वायु घसीटी जाएगी। किसी घूमती हुई गतिमान गेंद की धारारेखाएँ [चित्र 10.13(b)] दर्शायी गई हैं। गेंद आगे की ओर चलती है तथा इसके सापेक्ष वायु पीछे की ओर चलती है। इसलिए, गेंद के ऊपर वायु का वेग बढ़ जाता है और नीचे घट जाता है।


वेगों में अंतर के कारण ऊपरी तथा निचले पृष्ठों पर दाबांतर

उत्पन्न हो जाते हैं जिससे गेंद पर एक नेट ऊर्ध्वमुखी बल कार्य करता है। प्रचक्रण के कारण उत्पन्न इस गतिक उत्थापक को मेगनस प्रभाव (Magnus Effect) कहते हैं।

**वायुयान के पंख या ऐयरोफॉयल पर उत्थापक :**

जब ऐयरोफॉयल वायु में क्षैतिज दिशा में चलता है तो चित्र 10.13 (c) में दिखाए अनुसार विशिष्ट आकार के ठोस ऐयरोफॉयल पर गतिक उत्थापक ऊपर की ओर लगता है। चित्र 10.13 (c) के अनुसार वायुयान के पंख की अनुप्रस्थ काट ऐयरोफॉयल जैसी प्रतीत होती है जिसके परितः धारारेखाएँ प्रदर्शित हैं। जब ऐयरोफॉयल हवा के विपरीत चलता है तब पंखों का तरल प्रवाह के सापेक्ष दिक्कविन्यास धारारेखाओं को पंख के ऊपर-नीचे की अपेक्षा समीप कर देता है। प्रवाह की गति शीर्ष पर अधिक और नीचे कम होती है। इसके कारण ऊर्ध्वमुखी बल से पंख पर गतिक उत्थापक उत्पन्न होता है और यह वायुयान के भार को संतुलित करता है। निम्न उदाहरण इसे दर्शाता है।

► **उदाहरण 10.8** किसी पूर्णतः भारित बोइंग विमान की संहति  $3.3 \times 10^5 \text{ kg}$  है। इसका कुल पंख क्षेत्रफल  $500 \text{ m}^2$ । यह एक निश्चित ऊँचाई पर  $960 \text{ km/h}$  की चाल से उड़ रहा है। (a) पंख के ऊपरी तथा निचले पृष्ठों के बीच दाबांतर आकलित कीजिए। (b) निचले पृष्ठ की तुलना में ऊपरी पृष्ठ पर वायु की चाल में आंशिक वृद्धि आकलित कीजिए। [वायु का घनत्व  $\rho = 1.2 \text{ kg m}^{-3}$ ]



**चित्र 10.13** (a) अधूर्णी गतिमान गोले के समीप तरल (b) एक घूमते गतिमान गोले के निकट से गुजरने वाले तरल का धाराप्रवाह  
 (c) ऐयरोफॉयल के समीप से गुजरने वाली वायु में धारारेखाएँ।

**हल** (a) दाबान्तर से ऊर्ध्वमुखी बल से संतुलित बोइंग विमान का भार है

$$\Delta P \times A = 3.3 \times 10^5 \text{ kg} \times 9.8$$

$$\Delta P = (3.3 \times 10^5 \text{ kg} \times 9.8 \text{ m s}^{-2}) / 500 \text{ m}^2 = 6.5 \times 10^3 \text{ Nm}^2$$

(b) समीकरण (10.12) में हम वायुयान के ऊपरी पृष्ठ तथा निचले पृष्ठ की ऊँचाइयों के थोड़े अंतर की उपेक्षा कर देते हैं। तब इनके बीच दाबान्तर

यहाँ  $v_2$  वायु की ऊपरी पृष्ठ के ऊपर चाल तथा  $v_1$  वायु की निचले पृष्ठ के नीचे चाल है।

औसत चाल

$$v_{\text{av}} = (v_2 + v_1)/2 = 960 \text{ km/h} = 267 \text{ m s}^{-1}$$



$$\approx 0.08$$

पंखों के ऊपर वायु की चाल पंखों के नीचे वायु की चाल की तुलना में केवल 8 % अधिक होनी चाहिए।

## 10.5 श्यानता

सभी तरल आदर्श तरल नहीं होते तथा वह गति में कुछ प्रतिरोध डालते हैं। तरल गति में इस प्रतिरोध को आंतरिक घर्षण के रूप में देखा जा सकता है जो ठोसों में पृष्ठ पर गति से उत्पन्न घर्षण जैसा होता है। इसे श्यानता कहते हैं। जब द्रव की सतहों में सापेक्ष गति होती है तब यह बल उपस्थित होता है। चित्र 10.14 (a) में दर्शाये अनुसार यदि काँच की दो प्लेटों के बीच एक द्रव जैसे तेल को लेते हैं, निचली प्लेट को स्थिर रखा जाए जबकि ऊपरी प्लेट को समान गति से निचली प्लेट की अपेक्षा चलाते हैं। यदि तेल को शहद से विस्थापित कर दें तो उसी वेग से प्लेट को चलाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि तेल की तुलना में शहद की श्यानता अधिक है। पृष्ठ के संपर्क में तरल का वेग पृष्ठ के वेग के समान होता है। अतः, द्रव की ऊपरी सतह के संपर्क में द्रव  $\mathbf{v}$  वेग से चलता है और निचली स्थिर सतह के संपर्क में तरल की सतह स्थिर होगी। निचली स्थिर सतह से (शून्य वेग) जैसे-जैसे ऊपर जाते हैं सतहों का वेग समान रूप से बढ़ता जाता है तथा सबसे ऊपरी सतह का वेग  $\mathbf{v}$  होता है। किसी भी द्रव सतह के लिए, इससे ऊपर की सतह इसे आगे की ओर खींचती है जबकि नीचे की सतह पीछे की ओर खींचती है। इसके कारण सतहों

के बीच में बल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के प्रवाह को परत प्रवाह कहते हैं। जैसे मेज पर रखी चपटी किताब पर क्षैतिज बल लगाने पर उसके पने फिसलते हैं इसी प्रकार द्रव की परतें एक दूसरे पर फिसलती हैं। किसी पाइप या ट्यूब में जब एक तरल बहता है तो ट्यूब के अक्ष के अनुदिश द्रव की परत का वेग अधिकतम होता है और शनैः शनैः जैसे हम दीवारों की ओर चलते हैं यह कम होता जाता है और अंत में शून्य हो जाता है [चित्र 10.14 (b)]। एक ट्यूब में बेलनाकार पृष्ठ पर वेग स्थिर रहता है।



**चित्र 10.14** (a) दो समांतर काँच की प्लेटों के बीच रखे द्रव की एक परत जिसमें काँच की निचली प्लेट स्थिर है तथा ऊपरी प्लेट  $\mathbf{v}$  वेग से दाहिनी ओर गतिमान है। (b) पाइप में श्यान प्रवाह के लिए वेग वितरण।

इस गति के कारण द्रव के एक भाग जो किसी समय ABCD के रूप में था कुछ समय अंतराल ( $\Delta t$ ) में AEFD का स्वरूप ले लेता है। इस समय अंतराल में द्रव में एक अवरूपण विकृति  $\Delta x/l$  उत्पन्न हो जाती है। चूंकि प्रवाहित द्रव में समय के बढ़ने के अनुसार विकृति बढ़ती जाती है। ठोसों के विपरीत प्रयोगों द्वारा पाया गया है कि प्रतिबल विकृति की अपेक्षा 'विकृति परिवर्तन की दर' या 'विकृति दर' अर्थात्  $\Delta x/(l \Delta t)$


या  $v/l$  द्वारा प्रतिबल को प्राप्त किया जाता है। श्यानता गुणांक (उच्चारण 'इटा') की परिभाषा अवरूपण प्रतिबल तथा विकृतिदर के रूप में की जाती है,

$$\eta = \frac{F/A}{v/l} = \frac{Fl}{vA} \quad (10.18)$$

श्यानता का SI मात्र प्लाज (Pl) है। इसके दूसरे मात्रक  $N s m^{-2}$  या  $Pa s$  हैं। श्यानता की विमाएँ  $[ML^{-1}T^{-1}]$  हैं। आमतौर पर पतले द्रवों जैसे पानी, एल्कोहल आदि गाढ़े तरलों जैसे कोलतार, रक्त, ग्लिसरीन आदि की अपेक्षा कम श्यान होते हैं। कुछ सामान्य तरलों के श्यानता गुणांक सारणी 10.2 में सूचीबद्ध हैं। हम रक्त तथा जल के विषय में दो तथ्यों को बताते हैं, जो आपके लिए रोचक हो सकते हैं। सारणी 10.2 में इंगित सूचना के आधार पर जल की तुलना में रक्त अधिक गाढ़ा (अधिक श्यान) है। साथ ही रक्त की आपेक्षिक श्यानता ( $\eta/\eta_{जल}$ ) ताप-परिसर  $0^{\circ}\text{C}$  से  $37^{\circ}\text{C}$  के बीच अचर रहती है।

द्रव की श्यानता ताप बढ़ने पर घटती है, जबकि गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है।

**उदाहरण 10.9**  $0.10 \text{ m}^2$  क्षेत्रफल की कोई धातु की प्लेट किसी डोरी की सहायता से जो एक आदर्श घिरनी (जिसे संहति रहित तथा घर्षण रहित माना गया है) के  $F = \frac{0.010 \text{ kg}}{(0.085 \text{ m s}^{-1})(0.10 \text{ m}^2)} = 0.15 \text{ N}$  के ऊपर से हाँकर जाती है,  $0.010 \text{ kg}$  संहति से चित्र  $0.30 \times 10^{-3} \text{ m}^2$  की भाँति झुड़ी है। कोई द्रव जिसकी फिल्म  $0.30 \text{ mm}$  मोटाई की है, मेज़ तथा प्लेट के बीच रखी हुई है। मुक्त किए जाने पर प्लेट  $0.085 \text{ m s}^{-1}$  की अचर चाल से दाईं ओर गति करने लगती है। द्रव का श्यानता गुणांक ज्ञात कीजिए।



चित्र 10.15 द्रव के श्यानता गुणांक का मापन।

हल डोरी में तनाव के कारण धातु की प्लेट दाईं ओर गति करती है। डोरी में यह तनाव  $T$  परिमाण में डोरी से निलम्बित पिण्ड के भार  $mg$  के बराबर है। अतः अवरूपण

$$F = T = mg = 0.010 \text{ kg} \times 9.8 \text{ m s}^{-2} = 9.8 \times 10^{-2} \text{ N}$$

$$\text{द्रव पर अवरूपण प्रतिबल} = F/A = \frac{9.8 \times 10^{-2}}{0.10}$$

$$\text{विकृति दर} = \frac{v}{l} = \frac{0.085}{0.030}$$

$$\eta = \frac{\text{प्रतिबल}}{\text{विकृति दर}}$$

$$= 3.45 \times 10^{-3} \text{ Pa s}$$

**सारणी 10.2** कुछ तरलों की श्यानता

तरल	T( $^{\circ}\text{C}$ )	श्यानता (mPl)
जल	20	1.0
	100	0.3
रक्त	37	2.7
	16	113
मशीन का तेल	38	34
	20	830
ग्लिसरीन		
शहद		200
बायु	0	0.017
	40	0.019

### 10.5.1 स्टोक का नियम

**सामान्यतः:** जब एक पिण्ड किसी तरल से गिरता है तो वह अपने संपर्क में तरल की परतों को भी खींचता है। तरल की विभिन्न परतों में आपेक्ष गति उत्पन्न हो जाती है और परिणामस्वरूप पिण्ड एक परिणामी मंदक बल अनुभव करता है। स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई पानी की बूदें तथा दोलन गति करता हुआ लोलक ऐसी गति के कुछ सामान्य उदाहरण हैं। यह देखा गया है कि श्यानता बल पिण्ड की गति के अनुपाती तथा उसकी दिशा के विपरीत कार्य करता है। दूसरी अन्य राशियाँ जिस पर बल  $F$  निर्भर है तरल की श्यानता  $\eta$  तथा गोल की त्रिज्या  $a$  है। एक अंग्रेजी वैज्ञानिक सर जॉर्ज जी. स्टोक्स (1819-1903) ने श्यान कर्षण बल  $F$  निम्न संबंध द्वारा निरूपित किया है:

$$(10.19)$$

इसे स्टोक का नियम कहते हैं। हम स्टोक के नियम की व्युत्पत्ति नहीं करेंगे।

अवमंदन बल का यह नियम एक रोचक उदाहरण है जो वेग के अनुपाती है। किसी श्यान माध्यम में गिरते पिण्ड का अध्ययन करके हम इसका महत्व ज्ञात कर सकते हैं। हम वायु में गिरती एक वर्षा की बूँद पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आरंभ में यह गुरुत्व बल के कारण त्वरित होती है। जैसे-जैसे इसका वेग बढ़ता जाता है, मंदक श्यान बल भी बढ़ता जाता है। अंत में जब इस पर कार्यरत श्यान बल तथा उत्प्लावन बल, गुरुत्व बल के तुल्य हो जाता है, तो नेट बल तथा त्वरण शून्य हो जाता है। तब वर्षा की बूँद अचर वेग से नीचे की ओर गिरती है। साम्य अवस्था में सीमांत वेग  $v_t$  निम्न द्वारा दिया जाता है :

$$6\pi\eta av_t = (4\pi/3) a^3 (\rho-\sigma)g$$

जहाँ  $\rho$  तथा  $\sigma$  बूँद तथा तरल के क्रमशः संहति घनत्व हैं। हमें प्राप्त होता है :

$$v_t = 2a^2 (\rho-\sigma)g / (9\eta) \quad (10.20)$$

अतः सीमांत वेग  $v_t$  गोले के आकार के वर्ग के ऊपर निर्भर करता है तथा माध्यम के श्यानता के व्युत्क्रमानुपाती होता है।

इस संदर्भ में आप उदाहरण 6.2 पर पुनः ध्यान दे सकते हैं।

**उदाहरण 10.10** 2.0 mm त्रिज्या वाली एक ताँबे की गेंद 20°C पर 6.5 cm s<sup>-1</sup> सीमांत वेग से तेल के टेंक में गिर रही है। 20°C पर तेल की श्यानता का आकलन कीजिए। तेल का घनत्व  $1.5 \times 10^3$  kg m<sup>-3</sup> तथा ताँबे का घनत्व  $8.9 \times 10^3$  kg m<sup>-3</sup> है।

हल यहाँ  $v_t = 6.5 \times 10^{-2}$  m s<sup>-1</sup>,  $a = 2 \times 10^{-3}$  m,  $g = 9.8$  m s<sup>-2</sup>,  $\rho = 8.9 \times 10^3$  kg m<sup>-3</sup>,  $\sigma = 1.5 \times 10^3$  kg m<sup>-3</sup>। समीकरण (10.20) से

$$= 9.9 \times 10^{-1} \text{ kg m}^{-1} \text{ s}^{-1}$$

## 10.6 रेनल्ड्स संख्या

प्रवाह की दर अधिक होने पर प्रवाह रेखीय (स्तरीय) न रहकर विक्षुब्ध हो जाता है। विक्षुब्ध प्रवाह में किसी बिंदु पर तरल का वेग द्रुत तथा यादृच्छिक रूप से समय में बदलता रहता है। कुछ वृत्तीय गतियाँ जिन्हें भौंवर कहते हैं, भी उत्पन्न होती हैं। तीव्र गति से प्रवाहित किसी तरल के मार्ग में कोई बाधा रख देने पर प्रवाह विक्षुब्ध हो जाता है जिसे [चित्र 10.8 (b)] में दिखाया गया है।

जलती लकड़ियों से धुएँ का ऊपर उठना तथा महासागर धाराएँ विक्षुब्ध प्रवाह हैं। तारों का टिमटिमा वायुमण्डलीय विक्षेप का ही परिणाम है। कारों और वायुयान द्वारा वायु में तथा पश्चवर्ती क्षेप एवं बोट से पानी में विक्षुब्ध प्रवाह होता है।

ऑस्बर्न रेनल्ड्स (1842-1912) ने यह प्रेक्षण किया कि लघु दरों पर प्रवाहित होने वाले श्यान तरलों के लिए प्रक्षुब्ध (विक्षुब्ध) प्रवाह की संभावना कम होती है। उन्होंने एक विमाहीन अंक को परिभाषित किया, जिसके मान से हमें एक प्रवाह विक्षुब्ध होगा अथवा नहीं का स्थूल बोध होता है। इस अंक को रेनल्ड्स संख्या  $R_e$  कहते हैं।

$$R_e = \rho v d / \eta \quad (10.21)$$

जहाँ  $\rho$  तरल का घनत्व तथा  $v$  तरल के प्रवाह की चाल है। प्राचल  $d$  नलिका का व्यास है,  $R_e$  विमाहीन अंक है अतः यह मात्रकों के किसी भी निकाय में वही रहता है। यह देखा गया है कि यदि  $R_e$  का मान 1000 से कम है तो प्रवाह स्तरीय होता है।  $R_e > 2000$  के लिए विक्षुब्ध प्रवाह होता है।  $R_e$  का मान 1000 तथा 2000 के बीच है तो प्रवाह परिवर्ती हो जाता है। ज्यामितीय रूप से समान प्रवाह में  $R_e$  का क्रांतिक मान समान मान (क्रांतिक रेनल्ड्स संख्या) होता है। इस पर प्रवाह विक्षुब्ध हो जाता है। उदाहरण के लिए तेल तथा जल जिनके घनत्व तथा श्यानता भिन्न हैं, यदि दो सर्वसम आकृति तथा अनुप्रस्थ काट की नलियों में प्रवाहित करें तो  $R_e$  के लागभग समान मानों पर प्रवाह विक्षुब्ध हो जाता है। इस सत्य का उपयोग करते हुए हम प्रयोगशाला में एक लघुस्तरीय मॉडल स्थापित करके तरल प्रवाह के अभिलक्षणों का अध्ययन कर सकते हैं। इस तथ्य से हमें जहाजों, पनडुब्बियों, रेस में उपयोग होने वाली कारों तथा वायुयानों की अभिकल्पना करने में सहायता मिलती है।

$R_e$  को हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं:

$$R_e = \rho v^2 / (\eta v/d) = \rho A v^2 / (\eta A v/d) \quad (10.22)$$

= जड़त्वीय बल/श्यानता बल

इस प्रकार  $R_e$  अंक जड़त्वीय बल (जड़त्व के कारण बल अर्थात् प्रवाही तरल के द्रव्यमान अथवा प्रवाह मार्ग में अवरोध का जड़त्व) तथा श्यान बल का अनुपात होता है।

विक्षेप के कारण गतिज ऊर्जा क्षय प्रायः ऊर्जा के रूप में होता है। रेस के लिए उपयोग होने वाली कारों तथा वायुयान इतनी यथार्थतापूर्वक संरचित किए जाते हैं कि विक्षेप न्यूनतम हो। इस प्रकार के वाहनों की अभिकल्पना में प्रयोग तथा जाँच एवं भूल विधि सम्मिलित होती है। इसके विपरीत विक्षेप (घर्षण की भाँति) कभी-कभी बांछित होता है। विक्षेप मिश्रण प्रोत्साहित करता है तथा संहति, संवेग तथा ऊर्जा के स्थानांतर

की दर में वृद्धि कर देता है। रसोइघरों में उपयोग होने वाले मिक्सर के ब्लेड विक्षुब्ध प्रवाह प्रेरित करते हैं तथा गाढ़ा मिल्क शेक बनाने के साथ-साथ अंडे का समांगी (एकसमान) संरचना का घोल प्रदान करते हैं।

**उदाहरण 10.11** 1.25 cm व्यास की किसी जल टोंटी से प्रवाहित होने वाले जल की दर 0.48 L/min है। जल का श्यानता गुणांक  $10^{-3}$  Pa s है। कुछ समय पश्चात् प्रवाह की दर बढ़कर 3 L/min. हो जाती है। दोनों प्रवाहों के लिए अभिलक्षण बताइये।

हल मान लीजिए प्रवाह की चाल  $v$  है तथा टोंटी का व्यास  $d = 1.25 \text{ cm}$  है। टोंटी से प्रति सेकंड बाहर निकलने वाले जल का आयतन

$$Q = v \times \pi d^2 / 4$$

$$v = 4 Q / d^2$$

तब हम रेनल्ड्स संख्या का अनुमान इस प्रकार लगा सकते हैं,

$$R_e = 4 \rho Q / \pi d \eta$$

$$= 4 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3} \times Q / (3.14 \times 1.25 \times 10^{-2} \text{ m} \times 10^{-3} \text{ Pa s})$$

$$= 1.019 \times 10^8 \text{ m}^{-3} \text{ s} Q$$

चूंकि आरंभ में

$$Q = 0.48 \text{ L / min} = 8 \text{ cm}^3 / \text{s} = 8 \times 10^{-6} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1},$$

हम प्राप्त करते हैं,

$$R_e = 815$$

चूंकि यह 1000 से कम है अतः प्रवाह स्तरीय होगा।

कुछ समय पश्चात् जब

$$Q = 3 \text{ L / min} = 50 \text{ cm}^3 / \text{s} = 5 \times 10^{-5} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1},$$

हम प्राप्त करते हैं,

$$R_e = 5095$$

यह प्रवाह विक्षुब्ध होगा। स्तरीय प्रवाह से विक्षुब्ध प्रवाह में पारगमन को निर्धारित करने के लिए आप अपने वाश बेसिन पर एक प्रयोग कर सकते हैं।

## 10.7 पृष्ठ तनाव

आपने देखा होगा कि तेल तथा जल आपस में नहीं मिलते; जल आपको और मुझे गीला कर देता है परन्तु बतख को नहीं; पारा काँच से नहीं चिपकता किन्तु जल चिपक जाता है; गुरुत्व बल की उपस्थिति में भी तेल रुई की बत्ती से ऊपर चढ़ जाता है। रस तथा पानी पेड़ के शीर्ष की पत्तियों तक ऊपर उठ जाता है, रंग के ब्रुश के बाल सूखे होने पर और पानी में डुबोने पर भी एक दूसरे से नहीं चिपकते लेकिन जब उसके बाहर होते हैं तो एक उत्तम नोक बनाते हैं। ये और ऐसे ही अनेक अनुभव द्रवों


की स्वतंत्र सतहों से संबंधित हैं। द्रवों की कोई निश्चित आकृति नहीं होती, परन्तु उनका अपना एक निश्चित आयतन होता है। जब उन्हें किसी पात्र में उड़ेलते हैं तो उनका एक स्वतंत्र पृष्ठ होगा। इन पृष्ठों की कुछ अतिरिक्त ऊर्जा होती है। इस परिघटना को पृष्ठ तनाव कहते हैं। यह केवल द्रवों में हो सकती है क्योंकि गैसों के कोई स्वतंत्र पृष्ठ नहीं होते। अब हम इस परिघटना को समझने का प्रयत्न करते हैं।

### 10.7.1 पृष्ठीय ऊर्जा

कोई द्रव अपने अणुओं के बीच आकर्षण के कारण स्थायी है। द्रव के भीतर एक अणु लीजिए। अंतरापरमाणुक दूरियाँ इस प्रकार की होती हैं कि यह अपने घेरने वाले सभी परमाणुओं की ओर आकर्षित होता है [चित्र 10.16(a)]। इस आकर्षण के परिणामस्वरूप अणुओं के लिए ऋणात्मक स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। स्थितिज ऊर्जा का परिमाण इस बात पर निर्भर है कि इस चुने हुए अणु के चारों ओर अणु विन्यास किस प्रकार वितरित है तथा उनकी संख्या क्या है। परन्तु सभी अणुओं की औसत स्थितिज ऊर्जा समान होती है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि इस प्रकार के अणुओं के किसी संचयन (द्रव) को लेने की अपेक्षा उन्हें एक दूसरे से दूर बिखेरने (वाष्पन या वाष्पीकृत करने) के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह वाष्पन ऊर्जा काफी अधिक होती है। पानी के लिए यह ऊर्जा  $40 \text{ kJ/mol}$  के आसपास होती है।

अब द्रव के पृष्ठ के समीप किसी अणु पर हम विचार करते हैं [चित्र 10.16(b)]। द्रव के भीतर के अणु की तुलना में द्रव के आधे अणु ही इस अणु को घेरते हैं। इन अणुओं के कारण कुछ ऋणात्मक स्थितिज ऊर्जा होती है। परन्तु स्पष्ट रूप से यह द्रव के भीतर के अणु से अपेक्षाकृत कम होती है अर्थात् जो पूर्णरूप से अंदर है। यह लगभग बाद वाले के अपेक्षा आधी होती है। इस प्रकार किसी द्रव के पृष्ठ के अणु की ऊर्जा द्रव के भीतरी अणुओं की ऊर्जा से कुछ अधिक होती है। अतः कोई द्रव बाह्य स्थितियों के अनुसार, कम से कम अनुमत पृष्ठ क्षेत्रफल करने का प्रयास करता है। पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। अधिकांश पृष्ठीय परिघटनाओं को हम इसी तथ्य के पदों में समझ सकते हैं। किसी अणु को पृष्ठ पर रखने में कितनी ऊर्जा आवश्यक होती है? जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है यह लगभग अणु को पूर्ण रूप से द्रव से बाहर निकालने की ऊर्जा के आधी होती है अर्थात् वाष्पन की ऊर्जा की आधी ऊर्जा चाहिए।

अंत में देखें पृष्ठ क्या है? चूंकि द्रव अनियमित गतिशील




**चित्र 10.16** किसी द्रव में पृष्ठ पर अणुओं का व्यवस्था आरेख तथा बलों का संतुलन (a) किसी द्रव के भीतर अणु। अणु पर अन्य अणुओं के कारण बलों को दर्शाया गया है। तीरों की दिशाएँ आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण को दर्शाती हैं। (b) यही घटनाएँ द्रव के पृष्ठ के लिए। (c) आकर्षी (A) तथा प्रतिकर्षी (R) बलों की संतुलन।

अणुओं से बना है अतः पूर्ण रूप से स्पष्ट पृष्ठ नहीं हो सकता। [चित्र 10.16(c)] द्रव अणुओं का घनत्व  $z=0$  पर कुछ ही अणु आकार की दूरी पर तेज़ी से घटकर शून्य हो जाता है।

### 10.7.2 पृष्ठीय ऊर्जा तथा पृष्ठ तनाव

अन्य सभी कारकों, जैसे आयतन आदि को स्थिर रखते हुए जैसा हमने पहले विचार किया है कि द्रव के पृष्ठ के साथ ऊर्जा संबद्ध होती है और अधिक पृष्ठ उत्पन्न करना चाहें तो हमें और अधिक ऊर्जा खर्च करनी होगी। इस तथ्य को ठीक प्रकार समझने के लिए द्रव की एक ऐसी क्षैतिज फिल्म पर विचार कीजिए जो किसी ऐसी छड़ पर समाप्त होती है जो समांतर निर्देशकों पर सरकने के लिए स्वतंत्र है [चित्र (10.17)]।



**चित्र 10.17** किसी फिल्म को तानना। (a) संतुलन में कोई फिल्म (b) किसी अतिरिक्त दूरी तक तानित फिल्म।

मान लीजिए साम्यावस्था में हम चित्र में दर्शाये अनुसार छड़ को किसी छोटी दूरी  $d$  तक हटाते हैं। चूंकि फिल्म का क्षेत्रफल (अथवा पृष्ठ का क्षेत्रफल) बढ़ गया है अतः अब निकाय में

अधिक ऊर्जा होगी। इसका अर्थ है कि आंतरिक बल के विपरीत कार्य किया गया है। माना यह आंतरिक बल  $\mathbf{F}$  है तो आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य  $\mathbf{F} \cdot \mathbf{d} = Fd$  है। ऊर्जा संरक्षण के अनुसार यह अब फिल्म में संचित अतिरिक्त आंतरिक ऊर्जा है। माना कि फिल्म की प्रति एकांक क्षेत्रफल पृष्ठ ऊर्जा  $S$  है, और अतिरिक्त क्षेत्रफल  $2dl$  है। किसी फिल्म के दो पार्श्व होते हैं जिनके बीच में द्रव होता है अतः फिल्म के दो पृष्ठ होते हैं। अतः अतिरिक्त ऊर्जा

$$S(2dl) = Fd \quad (10.23)$$

$$\text{अथवा } S = Fd / 2dl = F / 2l \quad (10.24)$$

राशि  $S$  पृष्ठ तनाव का परिमाण है। यह द्रव के प्रति एकांक क्षेत्रफल की पृष्ठीय ऊर्जा है। यह चालित छड़ की प्रति एकांक लंबाई पर तरल द्वारा आरोपित बल है।

अभी तक हमने केवल एक द्रव के पृष्ठ की चर्चा की है। अधिक सामान्य रूप से हमें तरल के द्रवों या ठोस पृष्ठों पर विचार करना चाहिए। इन स्थितियों में पृष्ठीय ऊर्जा पृष्ठ के दोनों ओर के पदार्थों पर निर्भर होती है। उदाहरणस्वरूप यदि पदार्थों के अणु आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो पृष्ठीय ऊर्जा कम हो जाएगी परन्तु यदि वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तो पृष्ठीय ऊर्जा बढ़ जाएगी। इस प्रकार और अधिक उपयुक्त रूप से हम कह सकते हैं कि पृष्ठीय ऊर्जा दोनों पदार्थों के मध्य अंतरापृष्ठ की ऊर्जा है तथा यह दोनों पर ही निर्भर है।

उपरोक्त चर्चा के आधार पर निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त करते हैं :

- (i) पृष्ठ तनाव द्रव तथा अन्य किसी पदार्थ के बीच अंतरापृष्ठ

के तल में प्रति एकांक लंबाई पर कार्यरत बल (अथवा प्रति एकांक क्षेत्रफल की पृष्ठीय ऊर्जा) है। यह द्रव के भीतर के अणुओं की तुलना में अंतरापृष्ठ के अणुओं की अतिरिक्त ऊर्जा है।


- (ii) अंतरापृष्ठ के किसी भी बिंदु पर हम पृष्ठ तल (सीमा के अतिरिक्त) में एक रेखा खींच सकते हैं तथा इस रेखा की प्रति एकांक लंबाई पर रेखा के लंबवत् परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत पृष्ठ तनाव बलों  $S$  की कल्पना कर सकते हैं। यह रेखा साम्यावस्था में है और अधिक स्पष्टता के लिए पृष्ठ पर परमाणुओं अथवा अणुओं की एक रेखा की कल्पना कीजिए। इस रेखा के बाई ओर परमाणु रेखा को अपनी ओर खींचते हैं तथा जो इस रेखा के दाई ओर हैं वह इसे अपनी ओर खींचते हैं। तनाव की स्थिति में यह परमाणुओं की रेखा साम्यावस्था में होती है। यदि वास्तव में, रेखा अंतरापृष्ठ की सीमांत रेखा को निर्दिष्ट करती है जैसा कि चित्र 10.16 (a) तथा (b) में दर्शाया गया है तो केवल अंदर की ओर प्रति एकांक लंबाई में लगने वाला बल  $S$  है। सारणी 10.3 में विभिन्न द्रवों के लिए पृष्ठ तनाव के मान दिए गए हैं। पृष्ठ तनाव का मान ताप पर निर्भर करता है। शयनता के समान पृष्ठ तनाव का मान तापवृद्धि के साथ कम होता जाता है।

### सारणी 10.3 दिए गए तापों पर कुछ द्रवों के पृष्ठ तनाव तथा वाष्पन ऊर्जा

द्रव	ताप (°C)	पृष्ठ तनाव (N/m)	वाष्पन ऊर्जा (kJ/mol)
हीलियम	-270	0.000239	0.115
ऑक्सीजन	-183	0.0132	7.1
एथानॉल	20	0.0227	40.6
जल	20	0.0727	44.16
पारा	20	0.4355	63.2

यदि ठोस-वायु तथा तरल-वायु पृष्ठीय ऊर्जाओं के योग से तरल तथा ठोस की पृष्ठीय ऊर्जा कम है तो तरल ठोस से चिपकेगा। ठोस तथा द्रव पृष्ठों में संसंजक बल होता है। चित्र 10.18 में उपकरण के आरेख के अनुसार हम इसे सीधे ही माप सकते हैं। एक चपटी क्षैतिज काँच की प्लेट जिसके नीचे किसी पात्र में द्रव भरा है, तुला की एक भुजा कार्य करती है। प्लेट के क्षैतिज निचले किनारे को पानी से थोड़ा ऊपर रखकर, तुला के दूसरी ओर बाट रखकर संतुलित कर लेते हैं।

द्रव से भरे पात्र को थोड़ा ऊपर उठाते हैं ताकि यह काँच की प्लेट के क्षैतिज किनारों को छूने भर लगे और पृष्ठ तनाव के कारण प्लेट को नीचे की ओर खींचने लगे। अब दूसरी ओर कुछ बाट रखते हैं जब तक कि प्लेट द्रव से कुछ अलग न हो जाए।



चित्र 10.18 पृष्ठ तनाव मापना।


मान लीजिए आवश्यक अतिरिक्त भार  $W$  है। तब समीकरण 10.24 तथा वहाँ की गई चर्चा से, द्रव-वायु अंतरापृष्ठ का पृष्ठ तनाव


$$S_{la} = (W/2l) = (mg/2l) \quad (10.25)$$

जहाँ  $m$  अतिरिक्त संहति तथा  $l$  काँच की प्लेट के निचले किनारे की लंबाई है, पादाक्षर (1a) इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि यहाँ द्रव-वायु अंतरापृष्ठ तनाव सम्मिलित है।

### 10.7.3 संपर्क कोण

किसी अन्य माध्यम के संपर्क तल के निकट द्रव का पृष्ठ, आमतौर पर वक्रीय होता है। संपर्क बिंदु पर द्रव पृष्ठ पर स्पर्शज्या तथा द्रव के अंदर ठोस पृष्ठ पर स्पर्शज्या के बीच कोण को संपर्क कोण कहते हैं। इसे  $\theta$  से प्रदर्शित करते हैं। द्रवों तथा ठोसों के विभिन्न युग्मों के अंतरापृष्ठों पर यह भिन्न-भिन्न होता है। संपर्क कोण का मान यह दर्शाता है कि कोई द्रव किसी ठोस के पृष्ठ पर फैलेगा अथवा इस पर बूँदें बनाएगा। उदाहरणस्वरूप जैसा चित्र 10.19 (a) में दर्शाया गया है, कमल के पत्ते पर पानी की बूँदें बनती हैं परन्तु स्वच्छ प्लास्टिक प्लेट पर यह फैल जाती है [चित्र 10.19(b)]।





**चित्र 10.19** अंतरापृष्ठों में तनाव के साथ पानी की बूँदों के विभिन्न आकार (a) कमल के एक पत्ते पर (b) एक स्वच्छ प्लास्टिक प्लेट पर।

अब हम तीन अंतरापृष्ठीय तनावों का तीन अंतरापृष्ठों पर विचार करते हैं। जैसा कि चित्र 10.19(a) तथा (b) में दर्शाया गया है कि हम द्रव-वायु, ठोस-वायु तथा ठोस-द्रव के पृष्ठ तनाव  $S_{la}$ ,  $S_{sa}$ ,  $S_{sl}$  से दर्शाते हैं। तीनों माध्यमों के पृष्ठों पर लगे बल संपर्क रेखा पर साम्यावस्था में होने चाहिए। चित्र 10.19 (b) से हम निम्न संबंध व्युत्पन्न कर सकते हैं

$$S_{la} \cos \theta + S_{sl} = S_{sa} \quad (10.26)$$

यदि  $S_{sl} > S_{la}$  तो संपर्क कोण बहुत कोण होगा जैसा कि पानी तथा पत्ते का अंतरापृष्ठ। जब  $\theta$  बहुत कोण है तो द्रव के अणु एक दूसरे की ओर मजबूती से आकर्षित होते हैं तथा ठोस के अणुओं के साथ दुर्बल रूप से। द्रव-ठोस अंतरापृष्ठ को बनाने में बहुत ऊर्जा व्यय होती है, और तब द्रव ठोस को नहीं भिगोता। ऐसा मोम या तेल लगे पृष्ठ पर पानी के साथ होता है एवं पारे के साथ किसी भी तल पर। दूसरी ओर, यदि द्रव के अणु ठोस के अणुओं की ओर अधिक शक्ति से आकर्षित होते हैं, तो यह  $S_{sl}$  को कम कर देगा। इसलिए,  $\cos \theta$  बढ़ सकता है या  $\theta$  कम हो सकता है। तब  $\theta$  न्यूनकोण होगा, ऐसा पानी के काँच या प्लास्टिक पर होने से होता है या मिट्टी के तेल का किसी भी वस्तु पर (यह केवल फैल जाता है)। साबुन, अपमार्जक तथा रँगने वाली वस्तुएँ, गीले कर्मक हैं। जब इन्हें मिलाया जाता है तो संपर्क कोण छोटा हो जाता है जिससे यह भलीभांति अंदर घुसकर प्रभावी हो जाते हैं। पानी तथा रेशों के बीच संपर्क कोण बड़ा करने के लिए पानी में जल सहकारक को मिलाया जाता है।

#### 10.7.4 बूँद तथा बुलबुले

पृष्ठ तनाव का एक महत्व यह भी है कि यदि गुरुत्व बल के प्रभाव की उपेक्षा की जा सके तो द्रव की मुक्त बूँदों तथा बुलबुले गोलाकार होते हैं। आपने इस तथ्य को अवश्य देखा

होगा: विशेषकर स्पष्ट रूप से उच्च वेग वाले स्प्रे अथवा जेट से द्रुत बनने वाली छोटी बूँदों में, अथवा अपने बचपन के समय बनाए साबुन के बुलबुलों में। बूँदें तथा बुलबुले गोल ही क्यों होते हैं? साबुन के बुलबुले किस कारण स्थायी हैं? जैसा कि हम बार-बार चर्चा कर रहे हैं कि किसी द्रव-वायु अंतरापृष्ठ में ऊर्जा होती है। अतः किसी दिए गए आयतन के लिए सर्वाधिक स्थायी पृष्ठ वही है जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल सबसे कम हो। गोले में यह गुण होता है। हम इस तथ्य को इस पुस्तक में सत्यापित नहीं कर सकते परन्तु आप स्वयं यह जाँच कर सकते हैं कि इस संदर्भ में गोला कम से कम एक घन की तुलना में बेहतर है। अतः यदि गुरुत्व बल तथा अन्य बल (उदाहरणार्थ वायु-प्रतिरोध) निष्प्रभावी हों तो द्रव की बूँदें गोल होती हैं।

पृष्ठ तनाव का एक अन्य रोचक परिणाम यह है कि बूँद के भीतर का दाब बूँद के बाहर के दाब से अधिक होता है। [चित्र 10.20(a)]। मान लीजिए  $r$  त्रिज्या की कोई गोल बूँद साम्यावस्था में है। यदि इस बूँद की त्रिज्या में  $\Delta r$  की वृद्धि की जाए, तो बूँद में अतिरिक्त ऊर्जा होगी,

$$[4\pi(r + \Delta r)^2 - 4\pi r^2] S_{la} = 8\pi r \Delta r S_{la} \quad (10.27)$$


यदि बूँद साम्यावस्था में है तो खर्च की गई यह ऊर्जा बूँद के भीतर तथा बाहर के दाबांतर ( $P_i - P_o$ ) के प्रभाव में प्रसार के कारण बूँद द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा से संतुलित होती है। यहाँ कृत कार्य

$$W = (P_i - P_o) 4\pi r^2 \Delta r \quad (10.28)$$

जिससे

$$(P_i - P_o) = (2 S_{la} / r) \quad (10.29)$$

व्यापक रूप में, किसी द्रव-गैस अंतरापृष्ठ के लिए, उत्तल पार्श्व की ओर दाब का मान अवतल पार्श्व की ओर के दाब के मान से अधिक होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी द्रव के भीतर कोई वायु का बुलबुला है, तो यह वायु का बुलबुला अधिक दाब पर होगा [चित्र 10.20 (b)]।



**चित्र 10.20**  $r$  त्रिज्या की बूँद, गुहिका तथा बुलबुला।


किसी बुलबुले [चित्र 10.20 (c)] की बनावट किसी बूँद अथवा किसी गुहिका से भिन्न होती है। बुलबुले में दो अंतरापृष्ठ

होते हैं। उपरोक्त तर्क के आधार पर किसी बुलबुले के लिए  $(P_i - P_o) = (4 S_{la} / r)$  (10.30)

कदाचित् इसी कारण साबुन का बुलबुला बनाने के लिए आपको कुछ तेज़ी से फूँकना पड़ता है, परन्तु बहुत अधिक नहीं। अंदर थोड़ा अधिक दाब आवश्यक है।

### 10.7.5 केशिकीय उन्नयन

एक सुप्रसिद्ध प्रभाव किसी पतली नली में गुरुत्व के विरुद्ध जल का ऊपर उठना (उन्नयन) किसी वक्रित द्रव-वायु अंतरापृष्ठ के दोनों ओर दाब में अंतर होने के परिणामस्वरूप है। लैटिन भाषा में शब्द Capilla का अर्थ है केश अर्थात् बाल। यदि



**चित्र 10.21** केशिकीय उन्नयन (a) जल से भरे खुले बर्तन में ढूबी किसी पतली नली का व्यवस्था आरेख।  
(b) अंतरापृष्ठ के निकट का आवर्धित आरेख।

कोई नली केश की भाँति पतली हो तो उस नली में उन्नयन बहुत अधिक होगा। इसी तथ्य को देखने के लिए किसी ऐसी वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट (त्रिज्या  $a$ ) की ऊर्ध्वाधर केशनली पर विचार करते हैं जिसका एक सिरा जल से भरे किसी खुले बर्तन में ढूबा है (चित्र 10.21)। पानी तथा काँच में संपर्क कोण न्यून होता है। इस प्रकार केशिका में पानी का पृष्ठ अवतल होता है। इसका अर्थ है कि शीर्ष पृष्ठ के दोनों ओर दाबांतर है।

$$(P_i - P_o) = (2S/r) = 2S/(a \sec \theta) \\ = (2S/a) \cos \theta \quad (10.31)$$

इस प्रकार, नली के भीतर नवचंद्रक (वायु-जल अंतरापृष्ठ) पर जल का दाब वायुमण्डलीय दाब से कम है। चित्र 10.21(a) में दो बिंदुओं A तथा B पर ध्यान केंद्रित कीजिए, इन दोनों पर समान दाब होना चाहिए, अर्थात्

$$P_o + h \rho g = P_i = P_A \quad (10.32)$$

जहाँ  $\rho$  जल का घनत्व तथा  $h$  को केशिकीय उन्नयन कहते हैं [चित्र 10.21(a)]। समीकरण (10.31) तथा (10.32) का उपयोग करके हम प्राप्त करते हैं

$$h \rho g = (P_i - P_o) = (2S \cos \theta) / a \quad (10.33)$$

यहाँ की गई इस विवेचना तथा समीकरण (10.28) एवं (10.29) से यह स्पष्ट हो जाता है कि केशिकीय उन्नयन का कारण पृष्ठ तनाव ही है।  $a$  के लघुमानों के लिए यह अधिक होगा। बारीक या अत्यधिक पतली केशिका में प्रतिरूपी तौर से यह कुछ cm की कोटि का होता है। उदाहरण के लिए यदि  $a = 0.05$  cm है तो पानी के पृष्ठ तनाव (सारणी 10.3) का उपयोग करके हम पाते हैं

$$h = 2S/(\rho g a)$$

$$= \frac{2 \times (0.073 \text{ Nm}^{-1})}{(10^3 \text{ kg m}^{-3})(9.8 \text{ m s}^{-2})(5 \times 10^{-4} \text{ m})} \\ = 2.98 \times 10^{-2} \text{ m} = 2.98 \text{ cm}$$


ध्यान दीजिए, यदि द्रव-नवचंद्रक (मेनिस्कस) उत्तल है जैसा कि पारे में होता है अर्थात्  $\cos \theta$  ऋणात्मक है तो समीकरण (10.32) से यह स्पष्ट है कि केशनली में द्रव का तल नीचे गिर जाता है अर्थात् केशिकीय अपनयन होता है।

### 10.7.6 अपमार्जक तथा पृष्ठ तनाव

हम अपने ग्रीज़ तथा तेल के दाग-धब्बे लगे गंदे सूती अथवा रेशों से बने कपड़ों को जल में अपमार्जक अथवा साबुन घोलकर, इसमें कपड़ों को डुबोकर तथा हिलाकर साफ़ करते हैं। आइए इस प्रक्रिया को भली भाँति समझें।

जल से धोने पर ग्रीज़ के दाग दूर नहीं होते। इसका कारण यह है कि जल ग्रीज़ लगी धूल को गीला नहीं करता; अर्थात् इन दोनों के बीच संपर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल बहुत कम होता है। यदि जल ग्रीज़ को गीला कर सकता होता, तो जल का प्रवाह ग्रीज़ को हटा सकता था। कुछ इसी प्रकार की स्थिति अपमार्जक द्वारा प्राप्त की जाती है। अपमार्जकों के अणु 'हेयरपिन' की आकृति के होते हैं, जिनका एक सिरा जल से आकर्षित रहता है तथा दूसरा सिरा ग्रीज़, तेल अथवा मोम से, और इस प्रकार ये अणु जल-तेल अंतरापृष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं। इसके परिणाम को चित्र 10.22 में चित्रों के क्रम के रूप में दर्शाया गया है।

अपनी भाषा में, इसे हम इस प्रकार कहेंगे कि अपमार्जक, जिसके अणु एक सिरे पर जल को तथा दूसरे सिरे पर मान लीजिए तेल को आकर्षित करते हैं जो पानी के साथ मिलकर पृष्ठ तनाव अत्यधिक कम कर देते हैं। यह अंतरापृष्ठ बनाना ऊर्जा की दृष्टि से भी अनुकूल हो सकता है जिनमें अपमार्जक से घिरे गंदगी के गोले पुनः जल से घिरे हों। पृष्ठ क्रियाशील अपमार्जकों अथवा केवल सफ़ाई के लिए ही नहीं बरन् तेल तथा खनिज अयस्कों की प्रतिप्राप्ति में भी महत्वपूर्ण होता है।



**वित्र 10.22** अपमार्जक की कार्यप्रणाली - 'अपमार्जक अण क्या करते हैं' के पदों में।

**उदाहरण 10.12** 2.00 mm व्यास की किसी केशनली का निचला सिरा बीकर में भरे जल के पृष्ठ से 8.00 cm नीचे तक डुबोया जाता है। नली के जल में दूबे सिरे पर अर्धगोलीय बुलबुला फुलाने के लिए नली के भीतर आवश्यक दाब ज्ञात कीजिए। प्रयोग के ताप पर जल का पृष्ठ तनाव  $7.30 \times 10^{-2} \text{ Nm}^{-1}$  है। जल का घनत्व =  $1000 \text{ kg/m}^3$ , वायुमण्डलीय दाब =  $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$  तथा  $g = 9.80 \text{ m s}^{-2}$ । दाब आधिक्य भी परिकलित कीजिए।

हल किसी तरल के भीतर गैस के बुलबुले के अंदर दाब आधिक्य =  $2S/r$ , यहाँ  $S$  द्रव-गैस अंतरापृष्ठ का पृष्ठतनाव तथा  $r$  बुलबुले की त्रिज्या है। यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें केवल एक ही द्रव पृष्ठ है। (किसी गैस में द्रव की बैंद के लिए दो द्रव अंतरापृष्ठ होते हैं, अतः उस प्रकरण में दाब आधिक्य =  $4S/r$  लागू होता है)। बुलबुले के बाहर दाब  $P_o$  = वायुमण्डलीय दाब + 8 cm जल स्तंभ का दाब। अर्थात्

$$P_o = (1.01 \times 10^5 \text{ Pa} + 0.08 \text{ m} \times 1000 \text{ kg m}^{-3} \times 9.80 \text{ m s}^{-2})$$

$$= 1.01784 \times 10^5 \text{ Pa}$$

अतः बुलबुले के भीतर दाब

$$P_i = P_o + 2S/r$$

$$= 1.01784 \times 10^5 \text{ Pa} + (2 \times 7.3 \times 10^{-2} \text{ Pa m} / 10^{-3} \text{ m})$$

$$= (1.01784 + 0.00146) \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$= 1.02 \times 10^5 \text{ Pa}$$

चूँकि बुलबुला अर्धगोलीय है, अतः यहाँ केशनली की त्रिज्या को ही बुलबुले की त्रिज्या माना गया है। (उत्तर का निकटन तीन सार्थक अंकों तक किया गया है)। बुलबुले के भीतर दाब आधिक्य 146 Pa है। ◀

### सारांश

- तरलों का मूलभूत गुण यह है कि वह प्रवाहित होते (बहते) हैं। अपनी आकृति में परिवर्तन के प्रति तरलों में कोई प्रतिरोध नहीं होता। अतः पात्र की आकृति तरल की आकृति को निर्धारित करती है।
- द्रव असंपीड्य होता है तथा इसका अपना स्वतंत्र पृष्ठ होता है। गैस संपीड्य होती है तथा यह फैलकर समस्त उपलब्ध आयतन (स्थान) को भर देती है।
- यदि किसी तरल द्वारा किसी क्षेत्रफल  $A$  पर आरोपित अभिलंब बल  $F$  है तो औसत दाब  $P_{av}$  को बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात के रूप में इस प्रकार परिभाषित किया जाता है :

$$P_{av} = \frac{F}{A}$$

4. दाब का मात्रक पास्कल ( $\text{Pa}$ ) है। यह वास्तव में  $\text{N m}^{-2}$  ही है। दाब के अन्य सामान्य मात्रक इस प्रकार हैं :
 
$$1 \text{ atm} = 1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$$

$$1 \text{ torr} = 133 \text{ Pa} = 0.133 \text{ kPa}$$

$$1 \text{ mm of Hg} = 1 \text{ torr} = 133 \text{ Pa}$$
5. पास्कल का नियम : इसके अनुसार विरामावस्था में तरल का दाब उन सभी बिंदुओं पर जो समान ऊँचाई पर स्थित हैं, समान होता है। किसी परिबद्ध तरल पर आरोपित दाब बिना घटे उस तरल के सभी बिंदुओं तथा पात्र की दीवारों पर संचरित हो जाता है।
6. किसी तरल के भीतर दाब गहराई  $h$  के साथ इस व्यंजक के अनुसार परिवर्तित होता है
 
$$P = P_a + \rho gh$$
 यहाँ  $\rho$  तरल का घनत्व है जिसे एक समान माना गया है।
7. किसी असमान अनुप्रस्थ काट वाले पाइप में अपरिवर्ती प्रवाहरत, असंपीड्य तरल के प्रत्येक बिंदु से एक सेकंड में प्रवाहित होने वाले आयतन का परिमाण समान रहता है।
 
$$v A = \text{नियतांक} \quad (v \text{ वेग तथा } A \text{ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल})$$
 असंपीड्य तरलों के बहाव में यह समीकरण संहति संरक्षण के नियम के कारण है।
8. बर्नूली का सिद्धांत : इस सिद्धांत के अनुसार जब हम किसी धारा रेखा के अनुदिश गमन करते हैं, तो दाब ( $P$ ), प्रति एकांक आयतन गतिज ऊर्जा ( $\rho v^2/2$ ), तथा प्रति एकांक आयतन स्थितिज ऊर्जा ( $\rho gy$ ) का योग अचर रहता है
 
$$P + \rho v^2/2 + \rho gy = \text{नियतांक}$$
 यह समीकरण, मूलतः अपरिवर्ती प्रवाहरत, शून्य श्यानता वाले तरल के लिए लागू होने वाला ऊर्जा संरक्षण नियम है। शून्य श्यानता का कोई द्रव नहीं होता अतः उपरोक्त कथन लगभग सत्य है। श्यानता घर्षण की भाँति होती है और वह गतिज ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देती है।
9. यद्यपि तरल में अपरूपण विकृति के लिए अपरूपक प्रतिबल की आवश्यकता नहीं होती, परन्तु जब किसी तरल पर अपरूपण प्रतिबल लगाया जाता है तो उसमें गति  $\alpha$  जाती है, जिसके कारण इसमें एक अपरूपण विकृति उत्पन्न हो जाती है जो समय के बढ़ने के साथ बढ़ती है। अपरूपण प्रतिबल एवं अपरूपण विकृति की समय दर के अनुपात को श्यानता गुणांक  $\eta$  कहते हैं।
 यहाँ प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ हैं जो पाठ्य सामग्री में दिए गए हैं।
10. स्टोक का नियम : इस नियम के अनुसार  $\alpha$  क्रिज्या का गोला, जो श्यानता  $\eta$  के तरल में,  $v$  वेग से गतिमान है, द्रव की श्यानता के कारण एक श्यान कर्षण बल  $F$  अनुभव करता है जो  $F = -6\pi\eta av$  द्वारा व्यक्त किया जा सकता है।
11. किसी तरल के प्रक्षुब्ध प्रवाह का आरंभ एक विमाहीन प्राचल, जिसे रेनल्ड्स संख्या कहते हैं, द्वारा निर्धारित किया जाता है।
 
$$R_e = \rho vd/\eta$$
 यहाँ  $d$  तरल प्रवाह से संबद्ध कोई प्ररूपी ज्यामितीय लंबाई है तथा अन्य प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ हैं।
12. किसी द्रव का पृष्ठ तनाव प्रति एकांक लंबाई पर आरोपित बल (अथवा प्रति एकांक क्षेत्रफल की पृष्ठीय ऊर्जा होता है), जो द्रव तथा सीमांत पृष्ठ के बीच अंतरापृष्ठ के तल में कार्य करता है। यह वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो द्रव के अध्यंतर (आंतरिक) के अणुओं की अपेक्षा इसके अंतरापृष्ठ के अणुओं में होती है।

## विचारणीय विषय

- दाब एक अदिश राशि है। दाब की परिभाषा “प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल” से हमारे मन में ऐसी धारणा बनती है कि दाब सदिश राशि है जो कि वास्तव में असत्य है। परिभाषा के अंश में जिस ‘बल’ का प्रयोग किया गया है वह वास्तव में बल का एक घटक है जो पृष्ठ के क्षेत्रफल पर अभिलंबवत् आरोपित होता है। तरलों का वर्णन करते समय कण तथा दृढ़ पिण्ड यांत्रिकी की तुलना में संकल्पनात्मक बदलाव की आवश्यकता होती है। यहाँ हमारी रुचि तरल के उन-उन धर्मों में है जो तरल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु में परिवर्तित हो जाते हैं।
- हमें यह कदापि नहीं सोचना चाहिए कि तरल केवल ठोसों, जैसे किसी पात्र की दीवारें अथवा तरल में डूबा ठोस पदार्थ, पर ही दाब डालते हैं। वास्तव में तरल में हर बिंदु पर दाब होता है। तरल का कोई अवयव (जैसा कि चित्र 10.2 (a)] में दर्शाया गया है, उसके विभिन्न फलकों पर सामान्य दाब आरोपित होने के कारण साम्यावस्था में होता है।
- दाब के लिए व्यंजक  

$$P = P_a + \rho gh$$
 तभी सत्य होता है, जब तरल असंपीड़्य हो। व्यावहारिक रूप से कहें तो यह द्रवों पर जो अधिकतर असंपीड़्य हैं, लागू होता है और इसीलिए एक नियत ऊँचाई के लिए अपरिवर्तनीय रहता है।
- गेज़ दाब (या प्रमापी दाब) वास्तविक दाब तथा वायुमण्डलीय दाब का अंतर होता है।  

$$P - P_a = P_g$$
 बहुत सी दाब मापक युक्तियाँ गेज़ दाब ही मापती हैं। इनमें टायरों के दाब गेज़ तथा रक्तचाप गेज़ (स्फाइग्मौमैनोमीटर) सम्मिलित हैं।
- धारारेखा किसी तरल प्रवाह का मानचित्र होती है। स्थायी प्रवाह में दो धारारेखाएँ एक दूसरे को नहीं काटतीं। यदि ऐसा होता, तो जिस बिंदु पर दो धारारेखाएँ एक दूसरे को काटती हैं वहाँ तरल कण के दो संभव बेग होते।
- जिन तरलों में श्यान कर्षण होता है उन पर बर्नूली-सिद्धांत लागू नहीं होता। इस प्रकरण में क्षयकारी श्यान बल द्वारा किया गया कार्य भी गणना में लेना चाहिए तथा  $P_2$  [चित्र 10.9] का मान समीकरण (10.12) में दिए गए मान से कम होगा।
- ताप बढ़ने पर द्रव के परमाणु और अधिक गतिशील हो जाते हैं तथा श्यानता गुणांक  $\eta$  का मान घट जाता है। किसी गैस में ताप बढ़ने पर उसके परमाणुओं की यादृच्छिक गति बढ़ जाती है और  $\eta$  भी बढ़ जाता है।
- किसी प्रक्षेपण के आरंभ के लिए क्रोतिक रेनल्ड्स संख्या प्रवाह की ज्यामिति के अनुसार 1000 से 10000, के बीच हो सकता है।  $1000 < R_e < 2000$  अस्थायी प्रवाह को तथा  $R_e < 2000$  प्रक्षुब्ध प्रवाह को परिलक्षित करता है।
- पृष्ठ पर अणुओं की स्थितिज ऊर्जा अभ्यंतर के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा की अपेक्षा अधिक होने के कारण पृष्ठ तनाव होता है। दो पदार्थों जिनमें कम से कम एक तरल है, के अंतरापृष्ठ पर (जो दोनों को पृथक करता है) पृष्ठ ऊर्जा होती है। यह केवल एक तरल का ही गुण नहीं है।

भौतिक राशि	प्रतीक	विमाएँ	मात्रक	टिप्पणी
दाब	$P$	[M L <sup>-1</sup> T <sup>-2</sup> ]	पास्कल (Pa)	1 atm = $1.013 \times 10^5$ Pa, अदिश
घनत्व	$\rho$	[M L <sup>-3</sup> ]	kg m <sup>-3</sup>	अदिश
आपेक्षिक घनत्व		—	—	$\frac{\rho \text{ पदार्थ}}{\rho \text{ जल}}$ , अदिश
श्यानता गुणांक	$\eta$	[M L <sup>-1</sup> T <sup>-1</sup> ]	Pa s or पोयसुले (PI)	अदिश
रेनल्ड्स संख्या	$R_e$	—	—	$R_e = \frac{\rho v d}{\eta}$ , अदिश
पृष्ठ तनाव	$S$	[M T <sup>-2</sup> ]	N m <sup>-1</sup>	अदिश

## अभ्यास

### **10.1 स्पष्ट कीजिए क्यों**

- (a) मस्तिष्क की अपेक्षा मानव का पैरों पर रक्त चाप अधिक होता है।
- (b) 6 km ऊँचाई पर वायुमण्डलीय दाब समुद्र तल पर वायुमण्डलीय दाब का लगभग आधा हो जाता है, यद्यपि वायुमण्डल का विस्तार 100 km से भी अधिक ऊँचाई तक है।
- (c) यद्यपि दाब, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है तथापि द्रवस्थैतिक दाब एक अदिश राशि है।

### **10.2 स्पष्ट कीजिए क्यों**

- (a) पारे का काँच के साथ स्पर्श कोण अधिक कोण होता है जबकि जल का काँच के साथ स्पर्श कोण न्यून कोण होता है।
- (b) काँच के स्वच्छ समतल पृष्ठ पर जल फैलने का प्रयास करता है जबकि पारा उसी पृष्ठ पर बूँदें बनाने का प्रयास करता है। (दूसरे शब्दों में जल काँच को गीला कर देता है जबकि पारा ऐसा नहीं करता है।)
- (c) किसी द्रव का पृष्ठ तनाव पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है।
- (d) जल में घुले अपमार्जकों के स्पर्श कोणों का मान कम होना चाहिए।
- (e) यदि किसी बाह्य बल का प्रभाव न हो, तो द्रव बूँद की आकृति सदैव गोलाकार होती है।

### **10.3 प्रत्येक प्रकथन के साथ संलग्न सूची में से उपयुक्त शब्द छाँटकर उस प्रकथन के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए:**

- (a) व्यापक रूप में द्रवों का पृष्ठ तनाव ताप बढ़ने पर ..... है। (बढ़ता/घटता)
- (b) गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर ..... है, जबकि द्रवों की श्यानता ताप बढ़ने पर ..... है। (बढ़ती/घटती)
- (c) दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक वाले ठोसों के लिए अपरूपण प्रतिबल....., के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि द्रवों के लिए वह ..... के अनुक्रमानुपाती होता है। (अपरूपण विकृति/अपरूपण विकृति की दर)
- (d) किसी तरल के अपरिवर्ती प्रवाह में आए किसी संकीर्ण पर प्रवाह की चाल में वृद्धि में ..... का अनुसरण होता है। (संहति का संरक्षण/बर्नूली सिद्धांत)
- (e) किसी वायु सुरंग में किसी वायुयान के मॉडल में प्रक्षोभ की चाल वास्तविक वायुयान के प्रक्षोभ के लिए क्रांतिक चाल की तुलना में..... होती है। (अधिक/कम)

### **10.4 निम्नलिखित के कारण स्पष्ट कीजिए :**


- (a) किसी कागज की पट्टी को क्षैतिज रखने के लिए आपको उस कागज पर ऊपर की ओर हवा फूँकनी चाहिए, नीचे की ओर नहीं।
- (b) जब हम किसी जल टॉटी को अपनी डँगलियों द्वारा बंद करने का प्रयास करते हैं, तो डँगलियों के बीच की खाली जगह से तीव्र जल धारा<sup>ए</sup> फूट निकलती है।
- (c) इंजक्शन लगाते समय डॉक्टर के अँगूठे द्वारा आरोपित दाब की अपेक्षा सुई का आकार दबाई की बहिःप्रवाही धारा को अधिक अच्छा नियंत्रित करता है।
- (d) किसी पात्र के बारीक छिद्र से निकलने वाला तरल उस पर पीछे की ओर प्रणोद आरोपित करता है।
- (e) कोई प्रचक्रमान क्रिकेट की गेंद वायु में परवलीय प्रपथ का अनुसरण नहीं करती।

### **10.5 ऊँची इड़ी के जूते पहने 50 kg संहति की कोई बालिका अपने शरीर को 1.0 cm व्यास की एक ही वृत्ताकार एड़ी पर संतुलित किए हुए हैं। क्षैतिज फर्श पर एड़ी द्वारा आरोपित दाब ज्ञात कीजिए।**

### **10.6 टॉरिसिली के वायुदाब मापी में पारे का उपयोग किया गया था। पास्कल ने ऐसा ही वायुदाब मापी 984 kg m<sup>-3</sup> घनत्व की फ्रेंच शराब का उपयोग करके बनाया। सामान्य वायुमण्डलीय दाब के लिए शराब-स्तंभ की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।**


### **10.7 समुद्र तट से दूर कोई ऊर्ध्वाधर संरचना 10<sup>9</sup> Pa के अधिकतम प्रतिबल को सहन करने के लिए बनाई गई है। क्या यह संरचना किसी महासागर के भीतर किसी तेल कूप के शिखर पर रखे जाने के लिए उपयुक्त है? महासागर की गहराई लगभग 3 km है। समुद्री धाराओं की उपेक्षा कीजिए।**

- 10.8** किसी द्रवचालित आटोमोबाइल लिफ्ट की संरचना अधिकतम  $3000 \text{ kg}$  संहति की कारों को उठाने के लिए की गई है। बोझ को उठाने वाले पिस्टन की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल  $425 \text{ cm}^2$  है। छोटे पिस्टन को कितना अधिकतम दाब सहन करना होगा?
- 10.9** किसी U-नली की दोनों भुजाओं में भरे जल तथा मेथेलेटिड स्पिरिट को पारा एक-दूसरे से पृथक् करता है। जब जल तथा पारे के स्तंभ क्रमशः  $10 \text{ cm}$  तथा  $12.5 \text{ cm}$  ऊँचे हैं, तो दोनों भुजाओं में पारे का स्तर समान है। स्पिरिट का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए।
- 10.10** यदि प्रश्न 10.9 की समस्या में, U-नली की दोनों भुजाओं में इन्हीं दोनों द्रवों को और उड़ेल कर दोनों द्रवों के स्तंभों की ऊँचाई  $15 \text{ cm}$  और बढ़ा दी जाएँ, तो दोनों भुजाओं में पारे के स्तरों में क्या अंतर होगा? (पारे का आपेक्षिक घनत्व =  $13.6$ )।
- 10.11** क्या बर्नूली समीकरण का उपयोग किसी नदी की किसी क्षिप्रिका के जल-प्रवाह का विवरण देने के लिए किया जा सकता है? स्पष्ट कीजिए।
- 10.12** बर्नूली समीकरण के अनुप्रयोग में यदि निरपेक्ष दाब के स्थान पर प्रमापी दाब (गेज दाब) का प्रयोग करें तो क्या इससे कोई अंतर पड़ेगा? स्पष्ट कीजिए।
- 10.13** किसी  $1.5 \text{ m}$  लंबी  $1.0 \text{ cm}$  त्रिज्या की क्षेत्रिज नली से गिलसरीन का अपरिवर्ती प्रवाह हो रहा है। यदि नली के एक सिरे पर प्रति सेकंड एकत्र होने वाली गिलसरीन का परिमाण  $4.0 \times 10^{-3} \text{ kg s}^{-1}$  है, तो नली के दोनों सिरों के बीच दाबांतर ज्ञात कीजिए। (गिलसरीन का घनत्व =  $1.3 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$  तथा गिलसरीन की श्यानता =  $0.83 \text{ Pa s}$ )  
[आप यह भी जाँच करना चाहेंगे कि क्या इस नली में स्तरीय प्रवाह की परिकल्पना सही है।]
- 10.14** किसी आदर्श वायुयान के परीक्षण प्रयोग में वायु-सुरंग के भीतर पंखों के ऊपर और नीचे के पृष्ठों पर वायु-प्रवाह की गतियाँ क्रमशः  $70 \text{ m s}^{-1}$  तथा  $63 \text{ m s}^{-1}$  हैं। यदि पंख का क्षेत्रफल  $2.5 \text{ m}^2$  है, तो उस पर आरोपित उत्थापक बल परिकलित कीजिए। वायु का घनत्व  $1.3 \text{ kg m}^{-3}$  लीजिए।
- 10.15** चित्र 10.23(a) तथा (b) किसी द्रव (श्यानताहीन) का अपरिवर्ती प्रवाह दर्शाते हैं। इन दोनों चित्रों में से कौन सही नहीं है? कारण स्पष्ट कीजिए।



चित्र 10.23

- 10.16** किसी स्प्रे पंप की बेलनाकार नली की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल  $8.0 \text{ cm}^2$  है। इस नली के एक सिरे पर  $1.0 \text{ mm}$  व्यास के  $40$  सूक्ष्म छिद्र हैं। यदि इस नली के भीतर द्रव के प्रवाहित होने की दर  $1.5 \text{ m min}^{-1}$  है, तो छिद्रों से होकर जाने वाले द्रव की निष्कासन-चाल ज्ञात कीजिए।
- 10.17** U-आकार के किसी तार को साबुन के विलयन में डुबो कर बाहर निकाला गया जिससे उस पर एक पतली साबुन की फिल्म बन गई। इस तार के दूसरे सिरे पर फिल्म के संपर्क में एक फिसलने वाला हल्का तार लगा है जो  $1.5 \times 10^{-2} \text{ N}$  भार (जिसमें इसका अपना भार भी सम्मिलित है) को सँभालता है। फिसलने वाले तार की लंबाई  $30 \text{ cm}$  है। साबुन की फिल्म का पृष्ठ तनाव कितना है?
- 10.18** निम्नांकित चित्र 10.24(a) में किसी पतली द्रव-फिल्म को  $4.5 \times 10^{-2} \text{ N}$  का छोटा भार सँभाले दर्शाया गया है। चित्र (b) तथा (c) में बनी इसी द्रव की फिल्में इसी ताप पर कितना भार सँभाल सकती हैं? अपने उत्तर को प्राकृतिक नियमों के अनुसार स्पष्ट कीजिए।



चित्र 10.24


- 10.19** 3.00 mm क्रिन्या की किसी पारे की बूँद के भीतर कमरे के ताप पर दाब क्या है? 20 °C ताप पर पारे का पृष्ठ तनाव  $4.65 \times 10^{-1} \text{ N m}^{-1}$  है। यदि वायुमंडलीय दाब  $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$  है, तो पारे की बूँद के भीतर दाब-आधिक्य भी ज्ञात कीजिए।
- 10.20** 5.00 mm क्रिन्या के किसी साबुन के विलयन के बुलबुले के भीतर दाब-आधिक्य क्या है? 20 °C ताप पर साबुन के विलयन का पृष्ठ तनाव  $2.50 \times 10^{-2} \text{ N m}^{-1}$  है। यदि इसी विमा का कोई वायु का बुलबुला 1.20 आपेक्षिक घनत्व के साबुन के विलयन से भरे किसी पात्र में 40.0 cm गहराई पर बनता, तो इस बुलबुले के भीतर क्या दाब होता, ज्ञात कीजिए। (1 वायुमंडलीय दाब =  $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ )।

### अतिरिक्त अभ्यास

- 10.21**  $1.0 \text{ m}^2$  क्षेत्रफल के वर्गाकार आधार वाले किसी टैंक को बीच में ऊर्ध्वाधर विभाजक दीवार द्वारा दो भागों में बाँटा गया है। विभाजक दीवार में नीचे  $20 \text{ cm}^2$  क्षेत्रफल का कब्जेदार दरवाज़ा है। टैंक का एक भाग जल से भरा है तथा दूसरा भाग 1.7 आपेक्षिक घनत्व के अम्ल से भरा है। दोनों भाग  $4.0 \text{ m}$  ऊँचाई तक भरे गए हैं। दरवाज़े को बंद रखने के आवश्यक बल परिकलित कीजिए।

- 10.22** चित्र 10.25(a) में दर्शाए अनुसार कोई मैनोमीटर किसी बर्तन में भरी गैस के दाब का पाठ्यांक लेता है। पंप द्वारा कुछ गैस बाहर निकालने के पश्चात् मैनोमीटर चित्र 10.25(b) में दर्शाए अनुसार पाठ्यांक लेता है। मैनोमीटर में पारा भरा है तथा वायुमंडलीय दाब का मान 76 cm (Hg) है।

- प्रकरणों (a) तथा (b) में बर्तन में भरी गैस के निरपेक्ष दाब तथा प्रमाणी दाब cm (Hg) के मात्रक में लिखिए।
- यदि मैनोमीटर की दाहिनी भुजा में 13.6 cm ऊँचाई तक जल (पारे के साथ अमिश्रणीय) उड़ेल दिया जाए तो प्रकरण (b) में स्तर में क्या परिवर्तन होगा? (गैस के आयतन में हुए थोड़े परिवर्तन की उपेक्षा कीजिए।)



### चित्र 10.25

- 10.23** दो पात्रों के आधारों के क्षेत्रफल समान हैं परंतु आकृतियाँ भिन्न-भिन्न हैं। पहले पात्र में दूसरे पात्र की अपेक्षा कि सी ऊँचाई तक भरने पर दो गुना जल आता है। क्या दोनों प्रकरणों में पात्रों के आधारों पर आरोपित बल समान हैं? यदि ऐसा है तो भार मापने की मशीन पर रखे एक ही ऊँचाई तक जल से भरे दोनों पात्रों के पाठ्यांक भिन्न-भिन्न क्यों होते हैं?
- 10.24** रुधिर-आधान के समय किसी शिरा में, जहाँ दाब  $2000 \text{ Pa}$  है, एक सुई धूँसाई जाती है। रुधिर के पात्र को किस ऊँचाई पर रखा जाना चाहिए ताकि शिरा में रक्त ठीक-ठीक प्रवेश कर सके। (संपूर्ण रुधिर का घनत्व सारणी 10.1 में दिया गया है।)
- 10.25** बर्नूली समीकरण व्युत्पन्न करने में हमने नली में भरे तरल पर किए गए कार्य को तरल की गतिज तथा स्थितिज ऊर्जाओं में परिवर्तन के बराबर माना था। (a) यदि क्षयकारी बल उपस्थित है, तब नली के अनुदिश तरल में गति करने पर दाब में परिवर्तन किस प्रकार होता है? (b) क्या तरल का वेग बढ़ने पर क्षयकारी बल अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं? गुणात्मक रूप में चर्चा कीजिए।
- 10.26** (a) यदि किसी धमनी में रुधिर का प्रवाह पटलीय प्रवाह ही बनाए रखना है तो  $2 \times 10^{-3} \text{ m}$  त्रिज्या की किसी धमनी में रुधिर-प्रवाह की अधिकतम चाल क्या होनी चाहिए? (b) तदनुरूपी प्रवाह-दर क्या है? (रुधिर की श्यानता  $2.084 \times 10^{-3} \text{ Pa s}$  लीजिए।)
- 10.27** कोई वायुयान किसी निश्चित ऊँचाई पर किसी नियत चाल से आकाश में उड़ रहा है तथा इसके दोनों पंखों में प्रत्येक का क्षेत्रफल  $25 \text{ m}^2$  है। यदि वायु की चाल पंख के निचले पृष्ठ पर  $180 \text{ km h}^{-1}$  तथा ऊपरी पृष्ठ पर  $234 \text{ km h}^{-1}$  है, तो वायुयान की संहति ज्ञात कीजिए। (वायु का घनत्व  $1 \text{ kg m}^{-3}$  लीजिए।)
- 10.28** मिलिकन तेल बूँद प्रयोग में,  $2.0 \times 10^{-5} \text{ m}$  त्रिज्या तथा  $1.2 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$  घनत्व की किसी बूँद की सीमांत चाल क्या है? प्रयोग के ताप पर वायु की श्यानता  $1.8 \times 10^{-5} \text{ Pa s}$  लीजिए। इस चाल पर बूँद पर श्यान बल कितना है? (वायु के कारण बूँद पर उत्त्लावन बल की उपेक्षा कीजिए।)
- 10.29** सोडा कॉच के साथ पारे का स्पर्श कोण  $140^\circ$  है। यदि पारे से भरी ड्रोणिका में  $1.00 \text{ mm}$  त्रिज्या की कॉच की किसी नली का एक सिरा डुबोया जाता है, तो पारे के बाहरी पृष्ठ के स्तर की तुलना में नली के भीतर पारे का स्तर कितना नीचे चला जाता है? (पारे का घनत्व =  $13.6 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$ )
- 10.30**  $3.0 \text{ mm}$  तथा  $6.0 \text{ mm}$  व्यास की दो संकीर्ण नलियों को एक साथ जोड़कर दोनों सिरों से खुली एक U-आकार की नली बनाई जाती है। यदि इस नली में जल भरा है, तो इस नली की दोनों भुजाओं में भरे जल के स्तरों में क्या अंतर है? प्रयोग के ताप पर जल का पृष्ठ तनाव  $7.3 \times 10^{-2} \text{ N m}^{-1}$  है। स्पर्श कोण शून्य लीजिए तथा जल का घनत्व  $1.0 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$  लीजिए। ( $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ )

### परिकलित्र/कंप्यूटर-आधारित प्रश्न

- 10.31** (a) यह ज्ञात है कि वायु का घनत्व  $\rho$  ऊँचाई  $y$  (मीटरों में) के साथ इस संबंध के अनुसार घटता है :

$$\rho = \rho_0 e^{-y/y_0}$$


यहाँ समुद्र तल पर वायु का घनत्व  $\rho_0 = 1.25 \text{ kg m}^{-3}$  तथा  $y_0$  एक नियतांक है। घनत्व में इस परिवर्तन को वायुमंडल का नियम कहते हैं। यह संकल्पना करते हुए कि वायुमंडल का ताप नियत रहता है (समतापी अवस्था) इस नियम को प्राप्त कीजिए। यह भी मानिए कि  $g$  का मान नियत रहता है।

(b)  $1425 \text{ m}^3$  आयतन का हीलियम से भरा कोई बड़ा गुब्बारा  $400 \text{ kg}$  के किसी पेलोड को उठाने के काम में लाया जाता है। यह मानते हुए कि ऊपर उठते समय गुब्बारे की त्रिज्या नियत रहती है, गुब्बारा कितनी अधिकतम ऊँचाई तक ऊपर उठेगा?

$$[y_0 = 8000 \text{ m} \text{ तथा } \rho_{He} = 0.18 \text{ kg m}^{-3} \text{ लीजिए।}]$$

### परिशिष्ट 10.1 रक्त दाब (रक्त चाप) क्या है ?

विकासमूलक इतिहास में एक ऐसा समय भी आया जब जंतुओं ने अपना अधिकांश समय खड़े रहकर बिताना आरंभ कर दिया। इससे उनके परिसंचरण तंत्रों का कार्य बढ़ गया। इससे उनके शिरा तत्र, जो निचले अग्रांगों से रक्त को वापस हृदय तक पहुँचाते हैं, में परिवर्तन हुए। आप जानते ही हैं कि शिराएँ रक्त वाहिकाएँ होती हैं जिनसे होकर रक्त वापस हृदय तक पहुँचता है। मानव तथा जिराफ़ जैसे जंतुओं ने अपना अनुकूलन करके गुरुत्व बल के विपरीत अपने शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त को ऊपर पहुँचाने की समस्या को हल कर लिया है। परंतु, कुछ जीवों; जैसे—साँप, चूहा, तथा खरगोश को यदि ऊपरिमुखी रखें तो वे मर जाएँगे। इसका कारण यह है कि इन जीवों के शिरा-तंत्रों में रक्त को, गुरुत्व बल के विपरीत, हृदय तक वापस भेजने की सामर्थ्य नहीं होती, फलस्वरूप रक्त के निचले अग्रांगों में ही रहने के कारण ये जीव मर जाते हैं।



**चित्र 10.26** मानव शरीर के विभिन्न भागों की धमनियों में खड़े होते समय तथा लेटते समय गेज़ दाबों का आरेखीय दृश्य। यहाँ किसी एक हृदय-चक्र के औसत दाब दर्शाएँ गए हैं।

चित्र 10.26 में किसी मानव शरीर के विभिन्न बिंदुओं की धमनियों पर प्रेक्षित औसत दाब दर्शाएँ गए हैं। क्योंकि श्यानता के प्रभाव कम हैं, अतः इन दाबों को समझने के लिए बर्नूली समीकरण (10.13),

$$P + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho gy = \text{स्थिरांक}$$

का उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि तीनों धमनियों में रक्त के प्रवाह के वेग कम ( $\approx 0.1 \text{ m s}^{-1}$ ) तथा लगभग अचर है, अतः हम बर्नूली की उपरोक्त समीकरण में गतिज ऊर्जा के पद ( $\frac{1}{2} \rho v^2$ ) की उपेक्षा कर सकते हैं। इसीलिए मस्तिष्क, हृदय तथा पाद (पैर) के गेज़ दाबों (प्रमापी दाबों) क्रमशः  $P_B$ ,  $P_H$  तथा  $P_F$  में परस्पर संबंध को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं,

$$P_F = P_H + \rho g h_H = P_B + \rho g h_B \quad (10.34)$$

यहाँ  $\rho$  रक्त का घनत्व है।

हृदय तथा मस्तिष्क की ऊँचाइयों के प्ररूपी मान  $h_H = 1.3 \text{ m}$  तथा  $h_B = 1.7 \text{ m}$  होते हैं।  $\rho = 1.06 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$  लेने पर हमें पाद का प्रमापी दाब  $P_F = 26.8 \text{ kPa}$  (किलो पास्कल) तथा मस्तिष्क का प्रमापी दाब  $P_B = 9.3 \text{ kPa}$  प्राप्त होता है, जबकि हमें यह ज्ञात है कि हृदय का प्रमापी दाब  $P_H = 13.3 \text{ kPa}$  है। इस प्रकार, जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है तब उसके शरीर के निचले भाग तथा ऊपरी भाग के दाबों में इतना अंतर होता है। परंतु लेटी हुई स्थिति में ये दाब लगभग बराबर होते हैं। जैसा कि इसी अध्याय में पहले की जा चुकी चर्चा से स्पष्ट है कि औषध तथा शरीर विज्ञान में सामान्य उपयोग में टोर (torr) तथा mm (Hg) को दाब के मात्रक के रूप में काम में लाया जाता है।  $1 \text{ mm (Hg)} = 1 \text{ torr} = 0.133 \text{ kPa}$ । इस प्रकार, हृदय पर औसत दाब  $P_H = 13.3 \text{ kPa} = 100 \text{ mm (Hg)}$ ।

मानव शरीर प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। इसके निचले अग्रांगों की शिराओं में वाल्व होते हैं, जो उस समय खुलते हैं जब रक्त हृदय की ओर प्रवाहित होता है, तथा उस समय बंद हो जाते हैं, जब रक्त नीचे की ओर प्रवाहित होने का प्रयास करता है। श्वसन क्रिया तथा चलते समय कंकाल पेशियों में लचक से संबद्ध पंपन क्रिया द्वारा भी आंशिक तौर पर कुछ न कुछ रक्त वापस लौट जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि “सावधान” की स्थिति में खड़े रहने के लिए बाध्य कोई सिपाही हृदय में पर्याप्त मात्रा में रक्त के वापस न पहुँच पाने के कारण शिथिल (मूर्छित-सा) क्यों हो जाता है। यदि उसे एक बार लेटने की अनुमति प्रदान कर दी जाए, तो दाब समान हो जाता है।


और वह पुनः होश में आ जाता है।

मनुष्यों के रक्त चाप को मापने के लिए प्रायः एक उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसे नाड़ी दाबांतर मापी (स्फिग्मॉमैनोमीटर) कहते हैं। यह एक तीव्र, पीड़ाहीन तथा अनाक्रामक तकनीक होती है जिससे डॉक्टर को रोगी के स्वास्थ्य के बारे में विश्वसनीय धारणा प्राप्त होती है। चित्र 10.27 में रक्त चाप मापने की प्रक्रिया दर्शायी गई है। इस प्रक्रिया में ऊपरी भुजा का उपयोग करने के दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि इसका स्तर हृदय के स्तर के समान होता है, जिसके कारण यहाँ पर लोग गई दाब की माप हृदय पर दाब के लगभग बराबर होती है। दूसरा कारण यह है कि ऊपरी भुजा में केवल एक ही अस्थि होती है जिसके कारण यहाँ की धमनी (जिसे बाहुधमनी कहते हैं) को संपीड़ित करना सरल होता है।

हम सभी ने कलाई पर अंगुलियों को रखकर नाड़ी-दर (स्पंदन-दर) मापी है। प्रत्येक स्पंद एक सेकंड से कुछ कम समय लेता है। प्रत्येक स्पंदन में जैसे ही हृदय द्वारा रक्त पंप किया जाता है (प्रकुंचन दाब), तब हृदय तथा परिसंचरण तंत्र में दाब अधिकतम होता है तथा जब हृदय शिथिल होता है (अनुशिथिलन दाब), तब यह दाब न्यूनतम होता है। स्फिग्मॉमैनोमीटर वह युक्ति है जो इन दो चरम दाबों को मापती है। इसके कार्य करने का सिद्धांत यह है कि बाहु धमनी (ऊपरी भुजा) में प्रवाहित होने वाले रक्त के प्रवाह को उचित संपीड़न द्वारा स्तरीय प्रवाह से प्रक्षुब्ध प्रवाह में परिवर्तित किया जा सकता है। प्रक्षुब्ध प्रवाह क्षयकारी होता है, तथा इसकी ध्वनि को स्टेथोस्कोप द्वारा ढूँढ़ा जा सकता है।

ऊपरी भुजा के चारों ओर लिपटे वायु कोश के भीतर की वायु का गेज़ दाब किसी मैनोमीटर अथवा डायल दाब गेज़ (चित्र 10.27) की सहायता से मापा जाता है। सर्वप्रथम कोश का भीतरी दाब उस सीमा तक बढ़ाया जाता है कि बाहु धमनी बंद हो जाए। तत्पश्चात् कोश में वायु दाब धीरे-धीरे घटाया जाता है तथा कोश के तुरंत नीचे स्टेथोस्कोप को रखकर बाहु धमनी से आने वाले कोलाहल (शोर) को सुनते हैं। जब दाब प्रकुंचन (शिखर) दाब से तुरंत नीचे होता है तो धमनी बहुत थोड़ी-सी खुलती है। इस अल्पकालीन अवधि में अत्यधिक संकुचित धमनी में रक्त के प्रवाह का वेग उच्च तथा प्रक्षुब्ध होने के कारण कोलाहलपूर्ण होता है। स्टेथोस्कोप द्वारा यही परिणाम कोलाहल निकासी ध्वनि के रूप में सुनाई देता है। जब कोश में वायु दाब और कम किया जाता है तब हृदय-चक्र के अधिकांश भाग के लिए धमनी खुली रहती है। तथापि धड़कन की अनुशिथिलन (न्यूनतम दाब) प्रावस्था की अवधि में यह बंद रहती है। इस प्रकार, निकासी ध्वनि की अवधि अपेक्षाकृत बड़ी होती है। जब कोश में दाब अनुशिथिलन दाब के बराबर हो जाता है तो हृदय-चक्र की समस्त अवधि में धमनी खुली रहती है। यद्यपि, अब भी प्रवाह प्रक्षुब्ध तथा कोलाहलपूर्ण होता है। परंतु, अब निकासी ध्वनि के स्थान पर स्टेथोस्कोप में हम एक स्थायी, सतत कोलाहल सुनते हैं।

किसी रोगी का रक्त चाप प्रकुंचन दाब तथा अनुशिथिलन दाब के अनुपात के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। किसी शांत स्वस्थ वयस्क के लिए यह प्ररूपी मान  $120/80 \text{ mm (Hg)}$  या ( $120/80 \text{ टॉर्झ}$ ) होते हैं। यदि रक्त चाप  $140/90 \text{ mm (Hg)}$  से अधिक है तो उसे डॉक्टरी देखरेख तथा परामर्श चाहिए। उच्च रक्त चाप हृदय, गुर्दा (वृक्क) तथा शरीर के अन्य अंगों को गंभीर क्षति पहुँचा सकता है अतः इसे निर्यत्रित किया जाना आवश्यक होता है।



चित्र 10.27 स्फिग्मॉमैनोमीटर तथा स्टेथोस्कोप का उपयोग करके रक्त-चाप मापना।